

Weather Report
अधिकतम तापमान: 32.0°C
न्यूनतम तापमान: 21.0°C
हवा गति: 11 कि. / घं.
जयपुर सूर्योदय समय
सुबह: 6.06

संजीवनी टुडे

समय के साथ बढ़ता अखबार

अब होगी सुविधाओं की बात
संजीवनी टुडे के साथ
जम्मूखिबर, वैश्विक दर्शन और
निःशुल्क बंधाई सेवा
मास 1100/- ₹
साप्ताहिक 8X9 cm
संजीवनी टुडे
विशेष दर्शन के लिए कृपया, जयपुर, 28 जून 2024 तक
संजीवनी टुडे के साथ
e-mail: sanjeevinitoday@gmail.com

राष्ट्रपति का 50 मिनट का अभिभाषण: सेनाओं में सुधार का दावा

अग्निवीर का नाम नहीं, शिक्षा नीति की बात पर विपक्ष के नीट-नीट के नारे

अमरनाथ तीर्थयात्रियों का पहला जल्था कल कश्मीर पहुंचेगा

बालटाल-अनंतनाग बेस कैम्प में रुकेंगे यात्री; 29 जून को बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे

संजीवनी टुडे

नई दिल्ली। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। 50 मिनट के भाषण में राष्ट्रपति ने हर मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा- पेपर लोक करने वालों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने सेना को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारियां भी बताईं। नॉर्थ-ईस्ट में शांति के लिए सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा- अगले बजट सत्र में बड़े फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने आपातकाल को संविधान पर सीधा हमला बताया, यह भी कहा- देश ने इस हमले से उबरकर दिखाया। उन्होंने महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीबों के बारे में बात की। राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की तारीफ की, वहीं जीएसटी को भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मील का पत्थर बताया। आप सांसद संजय सिंह की अनुआई में पार्टी नेताओं ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी और एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ नारेबाजी की। राष्ट्रपति का अभिभाषण पूरा हो गया है। उन्होंने 50 मिनट भाषण दिया अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उनके भाषण के मुख्य अंशों का अंग्रेजी वर्जन पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति बोलीं- इस संसद की सिद्धि में अवरोध न हो ये हम सभी का दायित्व और कर्तव्य है। जब संसद सुचारु चलती है।



विकसित भारत बनाने के लिए नई गति प्राप्त कर चुके

आप सभी जानते हैं आज का समय पूरी तरह से भारत के लिए अनुकूल है। आज क्या नीतियां, निर्णय बनते हैं, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। पिछले दस साल में जो हुआ, उससे हम विकसित भारत बनाने के लिए नई गति प्राप्त कर चुके हैं। राष्ट्रपति बोलीं- 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। जम्मू कश्मीर में भी उन जगहों पर संविधान पूरी तरह लागू हो गया है, जहां 370 के कारण यह संभव नहीं था। राष्ट्रपति ने कहा- आने वाले कुछ महीने में भारत गणतंत्र के रूप में 75 साल पूरे करने जा रहा है। देश में संविधान लागू होने के बाद भी कई बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है, 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर हमले का सीधा सबूत है। लेकिन देश ने इससे उबरकर दिखाया। 21वीं सदी के तीसरे दशक में ग्लोबल ऑर्डर एक नई शक्त ले रहा है। मेरी सरकार के तहत आज भारत को दुनिया को नया भरोसा दे रहा है। कोरोना, युद्ध जैसे हालात में यह साबित हुआ है।

डिजिटल पेमेंट और चांद पर पहुंचने पर गर्व होना चाहिए

हमारी सफलताएं हमारी साझी धरोहर हैं, उन्हें अपनाने में संकोच नहीं, गर्व होना चाहिए। जो भारत डिजिटल पेमेंट के मामले में अच्छा प्रदर्शन करता है तो हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार पहुंचता है तो हमें गर्व होना चाहिए। आज पूरा विश्व हमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में सम्मान देता है। मेरी सरकार विकास के साथ विरासत पर भी काम कर रही है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती को भी धूमधाम से मनाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत तमिल संघम जैसी परंपरा भी हमारी सरकार ने शुरू की है। नालंदा यूनिवर्सिटी के रूप में एक नया अध्याय जुड़ा है। मुझे विश्वास है कि नई यूनिवर्सिटी इसे ग्लोबल हब बनाने में मददगार होगी। अब दंड की जगह न्याय को प्राथमिकता होगी। नए कानून से इस प्रक्रिया में तेजी आएगी। मेरी सरकार ने सीएफ के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है। मैं इन लोगों के बेहतर भविष्य की कामना करती हूँ। भारत के युवा खिलाड़ी कुछ दिन बाद पेरिस ओलिंपिक जाने वाले हैं। मैं उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। इसके साथ ही हम 2036 ओलिंपिक की तैयारी के लिए प्रयासरत हैं। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हड़पे हुए परीक्षकों की जांच और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है।

संजीवनी टुडे

जम्मू। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जल्था शुक्रवार को कश्मीर पहुंचेगा। यहां से वे उत्तर कश्मीर बालटाल और दक्षिण कश्मीर अनंतनाग बेस कैम्प जाएंगे। शुक्रवार को सुरक्षा काफिले के साथ सभी तीर्थयात्री घाटी के लिए रवाना होंगे और शनिवार (29 जून) को अमरनाथ के दर्शन करेंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत बुधवार से हो गई है। जम्मू के ड्रमर ने बताया कि सरस्वती धाम सेंटर से ऑफलाइन टोकन दिया जा रहा है। यात्रा की शुरुआत से पहले ही साधु-संत जम्मू पहुंचने लगे हैं। एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे रोहित बसकोटा के मुताबिक ट्रैफिक पर नियंत्रण के लिए उधमपुर से बनिहाल तक 10 हाई-एंड कैमरे लगाए हैं। इनमें उधमपुर के जाखनी क्षेत्र, दलवास, खोनी नाला, मेहर, बैटरी चरमा, नचलाना, बनिहाल चौक, सुरंग-5, शालीगढ़ी और कटपाईट जैसे स्पॉट शामिल हैं। यातायात पुलिस ने अमरनाथ यात्रा के दौरान नेशनल हाईवे पर आने-जाने वाले वाहन चालकों के लिए एक सलाह भी जारी की है, जिसमें लेन ड्राइविंग पर जोर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने पर बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। जम्मू में सुरक्षा बलों और आतंकीयों के बीच हुई मुठभेड़ के चलते यात्रा रूट्स पर सुरक्षा कड़ी सुरक्षा की गई है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए दोनों रूट के हाई सिक्वोरिटी पॉइंट्स पर पुलिस की 13, एसडीआरएफ की 11, एनडीआरएफ की आठ, बीएसएफ की चार और सीआरपीएफ की दो टीमों की तैनाती है। वहीं, श्राइन बोर्ड ने पहली बार मेडिकल व्यवस्थाएं बढ़ाई हैं। बालटाल और चंदनबाड़ी में 100-100 आईसीयू बेड, एडवॉंस उपकरण, एक्स-रे, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट, कार्डियक मॉनिटर, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट से लैस दो कैम्प अस्पताल तैयार किए हैं। यहां हवा में ऑक्सीजन कम रहती है, इसलिए यात्रा मार्ग पर 100 स्थाई ऑक्सीजन बूथ और मोबाइल ऑक्सीजन बूथ रहेंगे। पवित्र गुफा, शेषनाग और पंचरणी में तीन छोटे अस्पताल होंगे। कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर विजय कुमार बिठूड़ी के बताया था।



के चलते यात्रा रूट्स पर सुरक्षा कड़ी सुरक्षा की गई है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए दोनों रूट के हाई सिक्वोरिटी पॉइंट्स पर पुलिस की 13, एसडीआरएफ की 11, एनडीआरएफ की आठ, बीएसएफ की चार और सीआरपीएफ की दो टीमों की तैनाती है। वहीं, श्राइन बोर्ड ने पहली बार मेडिकल व्यवस्थाएं बढ़ाई हैं। बालटाल और चंदनबाड़ी में 100-100 आईसीयू बेड, एडवॉंस उपकरण, एक्स-रे, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट, कार्डियक मॉनिटर, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट से लैस दो कैम्प अस्पताल तैयार किए हैं। यहां हवा में ऑक्सीजन कम रहती है, इसलिए यात्रा मार्ग पर 100 स्थाई ऑक्सीजन बूथ और मोबाइल ऑक्सीजन बूथ रहेंगे। पवित्र गुफा, शेषनाग और पंचरणी में तीन छोटे अस्पताल होंगे। कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर विजय कुमार बिठूड़ी के बताया था।

बिरला से मिले राहुल, इमरजेंसी के जिक्र पर नाखुशी जताई

वेणुगोपाल ने चिट्ठी लिखी- लोकसभा स्पीकर के ऐसे भाषण से संसदीय परंपरा का उपहास हुआ

संजीवनी टुडे

नई दिल्ली। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के संबोधन में इमरजेंसी के जिक्र पर विवाद हो रहा है। इसी मुद्दे पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार 27 जून को बिरला से मुलाकात की। राहुल ने उनसे आपातकाल का जिक्र करने पर नाखुशी जताई। राहुल ने ये भी कहा कि यह पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा है, इससे बचा जा सकता था। राहुल के साथ सपा के धर्मेश यादव, डिपल यादव, डीएमके की कनिमोड़ी, एनसीपी (शरद पवार) की सुप्रिया सुले, आरजेडी की मौसा भारती, टीएमसी के कल्याण बनर्जी और आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन समेत अन्य सांसद बिरला से मिलने पहुंचे थे। इस बीच, कांग्रेस महासचिव केशी उन्होंने कहा कि संसद के इतिहास में अध्यक्ष का पद अभूतपूर्व है। एक नवनिर्वाचित स्पीकर के 'पहले कर्तव्यों' में से एक के रूप में अध्यक्ष की ओर से यह (इमरजेंसी का जिक्र) आना और भी गंभीर हो जाता है। वेणुगोपाल ने ये भी लिखा कि मैं इसे संसद की संस्थागत विश्वसनीयता पर प्रभाव डालने वाले एक बहुत ही गंभीर मामले के संदर्भ में लिख रहा हूँ। मैं, कांग्रेस की तरफ से संसदीय परंपराओं के इस उपहास पर अपनी गहरी चिंता जताता हूँ। स्पीकर चुने जाने के बाद पीएम मोदी ओम



बिरला को बधाई देने पहुंचे। उनके साथ राहुल गांधी भी पहुंचे। राहुल ने बिरला को बधाई दी, उसके बाद पीएम से भी हाथ मिलाया। ओम बिरला ने कहा- यह सदन 1975 में आपातकाल लगाने की निंदा करता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के सांसदों ने मौन रखा, पर कांग्रेस और विपक्ष के सांसद हंगामा करते रहे। थोपकर लोकतंत्र का अपमान किया। अभिव्यक्ति की आजादी छीनी गई। मोडिया पर अनेक पारबंदियां लगा दी गई थीं। कई नेताओं को मौसा के तहत बंद किया। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र के चौथे दिन (गुरुवार, 27 जून) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ।

इमरजेंसी के दौरान जान गंवाने वालों की याद में मौन

स्पीकर बिरला ने इमरजेंसी के दौरान जान गंवाने वालों की याद में दो मिनट का मौन रखने को कहा। सत्ता पक्ष के सांसदों ने मौन रखा, पर कांग्रेस और विपक्ष के सांसद हंगामा करते रहे। कांग्रेस सांसदों ने आरोप लगाया कि स्पीकर भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं। 50 मिनट के भाषण में राष्ट्रपति ने पेपर लोक, महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीबों पर बात की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आपातकाल संविधान पर हमले का सीधा सबूत है।

कर्नाटक में वोक्कालिगा संत की अपील: सिद्धारमैया पद छोड़ें

शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाएं, राज्य में पहले ही उठ चुकी तीन डिप्टी सीएम बनाने की मांग

संजीवनी टुडे

बेंगलुरु। कर्नाटक कांग्रेस में दार की खबरों के बीच एक वोक्कालिगा संत ने गुरुवार को कहा कि कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया को पद छोड़ देना चाहिए और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार जगह देनी चाहिए। विश्व वोक्कालिगा महासमस्ताना मठ के संत कुमार चंद्रशेखरनाथ स्वामीजी ने यह बात केंपेगोड़ा जयंती के मौके पर बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों मौजूद थे। वोक्कालिगा संत की यह अपील ऐसे समय में आई है जब राज्य में वीरशैवा-लिंगायत, ट्ट/ट्ट और अल्पसंख्यक समुदाय से तीन और डिप्टी सीएम बनाए जाने की मांग उठ रही है। राज्य में फिलहाल डीके शिवकुमार अकेले डिप्टी सीएम हैं। वे दक्षिणी कर्नाटक के प्रभावी समुदाय वोक्कालिगा से आते हैं। वहीं कर्नाटक में इन दिनों तीन और डिप्टी सीएम बनाए जाने की मांग उठ रही है। कर्नाटक के कुछ मंत्री वीरशैवा-लिंगायत, एससी/एसटी और माइनोंरिटी कम्युनिटी के नेताओं को डिप्टी सीएम दिए जाने की पैरवी कर रहे हैं। फिलहाल कर्नाटक में डिप्टी सीएम के पद पर वोक्कालिगा समुदाय के डीके शिवकुमार हैं।




संत बोले- सब सत्ता भोग चुके, शिवकुमार ही बाकी हैं

संत ने मंच पर कहा कि हर कोई मुख्यमंत्री बन चुका है और सत्ता भोग चुका है, लेकिन हमारे डीके शिवकुमार अब तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं। इसलिए सिद्धारमैया से निवेदन है कि वे इस पद का अनुभव कर चुके हैं, तो अब उन्हें सत्ता शिवकुमार को सौंप देनी चाहिए और उन्हें अश्रीवांद देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह तभी हो सकता है जब सिद्धारमैया ऐसा चाहेंगे। अन्याथा ये नहीं हो पाएगा। इसलिए नमस्कार के साथ मैं सिद्धारमैया से निवेदन करना चाहता हूँ कि डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाएं। वोक्कालिगा संत की यह अपील ऐसे समय में आई है जब राज्य में वीरशैवा-लिंगायत, एससी/एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय से तीन और डिप्टी सीएम बनाए जाने की मांग उठ रही है। संत की इस अपील को लेकर सिद्धारमैया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान पार्टी है। यह लोकतंत्र है। हम वही करेंगे जो हाईकमान हमें करने को कहेगा। वहीं शिवकुमार ने कहा कि कुछ बातें कही गई हैं। मैं और सिद्धारमैया दोनों ही राज्य के रुके हुए प्रोजेक्ट्स के बारे में राज्य के सांसदों से बात करने के लिए नई दिल्ली जा रहे हैं।

हरियाणा कांग्रेस में 30 बड़े नेताओं की एंट्री

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सम्मान का भरोसा दिलाया, उदयभान बोले- लोकसभा महज ट्रेलर, फिल्म अभी बाकी



संजीवनी टुडे

हरियाणा। हरियाणा कांग्रेस में आज 30 बड़े नेताओं की एंट्री के साथ सैकड़ों पदाधिकारी पार्टी में शामिल हुए। जिनमें 2019 के विधानसभा चुनाव में जगाधरी से बसपा प्रत्याशी के रूप में 48768 वोट पाने वाले आदर्श पाल सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री, आम आदमी पार्टी एवं हरियाणा के पूर्व डीजीपी के.पी. सिंह के भाई, 2019 में जेजेपी से पंचकूला प्रत्याशी रहे अजय गौतम सहित भाजपा, जेजेपी, इनेलो के कई पदाधिकारी, पूर्व सरपंच, पूर्व पार्षद एवं कई नेता आज कांग्रेस में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान एवं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। हुड्डा ने उन्हें कांग्रेस में उनके पुराने सम्मान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सभी नेताओं ने सही समय पर सही निर्णय लिया है। उनके आने से कांग्रेस और मजबूत होगी तथा सत्ता परिवर्तन का संघर्ष पहले से अधिक मजबूत होगा। चौधरी उदयभान ने कहा कि लोकसभा के नतीजे तो महज ट्रेलर थे, अस्तौ फिल्म कांग्रेस विधानसभा में दिखाएगी। पार्टी प्रदेश में बहादुर से सरकार बनाने जा रही है। संघर्ष के इस दौर में कांग्रेस के साथी बन रहे सभी साथियों का तहें दिल से स्वागत है। दीपेंद्र हुड्डा ने भी पार्टी में शामिल होने वाले सभी नेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

पिता को लिवर डोनेट कर सकेगी नाबालिग बेटी

सरकार के बाद हाईकोर्ट से भी मिली परमिशन, इंदौर में जल्द की जाएगी सर्जरी

संजीवनी टुडे

इंदौर। इंदौर में नाबालिग बेटी को अपने पिता को लिवर डोनेट करने की परमिशन मिल गई है। बेटी की याचिका पर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने गुरुवार सुबह 10.30 बजे इसकी अनुमति दी। डॉक्टर आज ही सर्जरी कर सकते हैं। इससे पहले मंगलवार शाम सरकारी स्तर पर सहमति मिलने के बाद ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया निजी हॉस्पिटल में शुरू कर दी गई थी। पिता और डोनर बेटी को डॉक्टरों की टीम ने अंबज्वेशन में ले लिया था। पिता को लिवर डोनेट करने वाली नाबालिग बेटी मध्यप्रदेश की पहली नाबालिग डोनर है। इंदौर के शिवनारायण बाथम (42) का लिवर फेल हो गया है। उनकी कैंडिडेशन क्रिटिकल है। डोनर नहीं मिलने पर नाबालिग बेटी प्रीति ने कहा था कि वह शिवनारायण को लिवर देना चाहती है। लेकिन उसकी उम्र 18 साल से दो महीने कम होने के चलते डॉक्टरों ने ट्रांसप्लांट में कानूनी अड़चन बता दी थी। इस पर नाबालिग ने 13 जून को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हेल्थ जर्नल जॉन हॉफकिन्स मेडिसिन के मुताबिक, लिवर हमारे शरीर में ज्यादातर केमिकल्स के लेवल को कंट्रोल करता है। यह पित्त बनाता है, जो फैट को पचाता है और अपशिष्ट बाहर निकालता है।

दो हॉस्पिटल और कमिश्नर की रिपोर्ट्स को बनाया आधार

प्रीति के वकील नीलेश महारे ने बताया, 'गुरुवार को ग्वालियर बेंच के जज विशाल मिश्रा ने इंदौर बेंच में वर्चुअल सुनवाई की। कोर्ट ने 20 और 24 जून के ऑर्डर और रिपोर्ट को आधार पर लिवर ट्रांसप्लांट करने की परमिशन दी है। फैसले का आधार एमवाय हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड, एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डॉन और भोपाल कमिश्नर की रिपोर्ट्स को आधार बनाया है। महारे ने बताया कि शिवनारायण प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं। मेडिकल चेकअप में प्रीति भी फिट पाई गई है। डॉ. अमित बरफा ने बताया कि लिवर ट्रांसप्लांट की तैयारियां लगभग पूरी हैं। दोपहर बाद कोर्ट का लिखित ऑर्डर मिलते ही ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया जाएगा। इसमें 10 से 12 घंटे का समय लगेगा। डॉक्टरों का कहना था कि लिवर ट्रांसप्लांट करने का भी एक समय होता है। समय निकलने के बाद ट्रांसप्लांट का सक्सेसफुल कम हो जाता है। अगर मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया तो पेशेंट बीमार होकर वेंटिलेटर पर आ सकता है। लिवर ट्रांसप्लांट मुश्किल होगा। इस कारण नाबालिग बेटी को पिता को बचाने के लिए हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी। पेट और आंतों से गुजरने वाला सारा ब्लड लिवर से होकर गुजरता है। लिवर इस खून को फिल्टर करता है और इसे संतुलित बनाता है। यह खाने से पोषक तत्व अवशोषित करता है। जो न्यूट्रिएंट्स शरीर के काम के हैं, उन्हें शरीर के जल्दी हिस्से तक भेज देता है। बाकी बचे पोषक तत्वों को स्टोर कर लेता है।



अखिलेश का पीएम पर तंज, कहा-सेंगोल को प्रणाम करना भूलें

अनुप्रिया पटेल का जवाब- जब संसद में लगा, तब कहां थे, सेंगोल पर फिर विवाद

संजीवनी टुडे

उत्तर प्रदेश। संसद में सेंगोल पर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। गुरुवार को संसद के बाहर मोडिया से बातचीत में सपा सुप्रिमो अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर तंज किया। उन्होंने कहा- मुझे लगता है कि जब पहली बार सेंगोल लगा था, तो प्रधानमंत्री ने इसे प्रणाम किया था। लेकिन इस बार शपथ के दौरान प्रणाम करना भूल गए, इसी को याद दिलाने के लिए हमारे सांसद ने ये बयान दिया। अखिलेश के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी का जवाब आया है। अनुप्रिया ने पूछा- जब संसद में सेंगोल स्थापित हुआ, तब सपा सांसद कहां थे बुधवार को मोहनलालगंज से सपा सांसद आरके चौधरी ने संसद से सेंगोल हटाने की मांग की थी। उन्होंने स्पीकर को लेटर लिखकर कहा था कि सेंगोल राजदंड, राजतंत्र का प्रतीक है। संसद लोकतंत्र का मंदिर है। किसी राज-रजवाड़े का महल नहीं। इसलिए, संसद से सेंगोल हटाकर संविधान की विशाल प्रति लगवानी चाहिए। पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कुण्ड ने कहा- सपा का बस चले तो यह सेंगोल ही क्यों यह तो सनातन, संविधान और भारत की संसद को ही हटा सकता है। संविधान बहाना है यह तो सनातन विरोधी हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का विरोध करते हैं। इन्हें सिर्फ लूट करनी है। इनके पास कोई विजन नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर अखिलेश ने कहा, ये सरकार का भाषण था। सरकार ये दावा करती है कि हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तो किसान क्यों दुखी है किसान क्यों संकट में हैं। जिस तरह से दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने की कहानी बताई जा रही, तो क्या हमारा किसान भी उसी तरीके से खुशहाल हो गया है अगर हम 5वें नंबर पर हैं तो हमारे युवा बेरोजगार क्यों हैं अग्निवही जैसी व्यवस्था क्यों आधी अधूरी लागू करनी पड़ रही है।



एनडीए की जीत के बाद आडवाणी से मिलने पहुंचे थे मोदी



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जून को लोकसभा चुनाव में गव्ह की जीत के बाद लाल कृष्ण आडवाणी से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने आडवाणी को गुलदस्ता भेंट किया। आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। 2002 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 7वें उपप्रधानमंत्री रहे। इससे पहले 1998 से 2004 के बीच गव्ह सरकार में गृहमंत्री रहे। वे भाजपा के फाउंडर मेंबर में शामिल हैं। राम मंदिर आंदोलन के लिए लालकृष्ण आडवाणी ने 63 साल की उम्र में गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली थी। 25 सितंबर 1990 से शुरु हुई इस यात्रा की कमान मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन से संभाली थी। यह आडवाणी की रथ यात्रा का ही कमाल था कि 1984 में दो सीट जीतने वाली भाजपा को 1991 में 120 सीटें मिली। इतना ही नहीं आडवाणी ने पूरे देश में एक हिन्दूवादी नेता के तौर पर पहचान बनाई।

खबरें फटाफट

बडसम गांव में पेयजल आपूर्ति की गम्भीर समस्या, ग्रामीण परेशान



संजीवनी टुडे

मोदरान। सांचौर जिले के बडसम गांव में पिछले कई दिनों से पीने के पानी की सप्लाई नहीं होने से आमजन ग्रामीण एवं पशुपालक परेशान हो रहे हैं गांव बडसम में एक सार्वजनिक टांका निर्माण किया हुआ होने के बावजूद इस सार्वजनिक टांके में पानी नहीं पहुंचने से गांव में आवारा पशु पक्षियों व ग्रामीणों को पानी नहीं पहुंच रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं समाज सेवी करमीराम देवासी ने बताया कि हमारे कुएं से पेयजल का पानी टांका में सप्लाई कर रहे हैं एवं ग्रामीणजन ने जिला कलेक्टर एवं जनदाय विभाग को सूचित किया गया लेकिन बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम सभी ग्रामीण धरना प्रदर्शन व आंदोलन करेगे वरना समय रहते ही पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से किया जाए।

भाविप के संस्थापक डॉ सुरज प्रकाश की 104वीं जयंती मनाई



संजीवनी टुडे

राजगढ़ (अलवर)। भारत विकास परिषद राजगढ़ शाखा द्वारा परिषद के संस्थापक डॉक्टर सुरज प्रकाश की 104 वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान परिषद के सदस्यों ने अस्पताल में जाकर फूल, बिरिचिट, जूस, लस्सी आदि मरीजों को वितरित की गई। इस मौके पर शाखा की अध्यक्ष पदमा गायल, शाखा संरक्षक डॉक्टर के एम गुप्ता, जिला समन्वयक राजेश शर्मा, लोकेश रावत, रामरतन तांबी, राजीव जैन, पारस सराफ, राजेंद्र विजय, ओम प्रकाश, संगीता विजय, प्रीति शर्मा, प्रीति विजय, दीपक विजय, अशोक विजय, दिनेश सैन आदि सदस्य मौजूद रहे। यह जानकारी समिति की सचिव रश्मि विजय ने दी।

तेज रफ्तार से आ रही कार बकाबू होकर पलटी, चालक सहित 2 लोग घायल



संजीवनी टुडे

चाकसू। इलाके के हाईवे 52 स्थित चेची होटल के पास गुरुवार को तेज रफ्तार से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जाकर पलट गई और वही पुलिस के मुताबिक हादसे में कार चालक समेत 2 जने घायल हो गए और वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को ग्रामीणों की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया गया है कि चालक को नींद की झपकी आने से हादसा हुआ है। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई और वहीं फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

खड़े केंटर से टकराया बजरी से भरा डंपर



संजीवनी टुडे

चाकसू। इलाके के हाईवे स्थित कोटखावा पुलिया के पास बजरी से भरा एक डंपर खड़े केंटर से टकरा गया और हादसे में डंपर का केबिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई टक्कर लगने के बाद हाईवे पर यातायात बाधित हो गया और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड में करवाया और इसके बाद यातायात सुचारू करवाया गया है।

ट्रेन की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत, सम्मान के साथ किया अंतिम संस्कार



संजीवनी टुडे

राजगढ़ (अलवर)। कस्बे के रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार को ट्रेन की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। इस हादसे की सूचना पर रेलवे पुलिस एवं प्रशासन ने वन विभाग के कर्मचारियों की ओर से मृत मोड़ को रेंज कार्यालय में ले जाया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार छोटेलाल मोना, ट्रेनी आईएफएस काव्या एवं रेंज के कर्मचारियों की मौजूदगी में मृत मोर का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम पशु चिकित्सा अधिकारी मोहनलाल मीणा के नेतृत्व में किया गया। इसके बाद से सम्मान के साथ राष्ट्रीय पक्षी मोर का अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका से जुड़े जुगनू तंबोली, सुरेश चंद एवं पुलिस प्रशासन को कर्मचारी मौजूद रहे।

राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धि राशि हस्तांतरण कार्यक्रम आयोजित

88 लाख से अधिक पेंशनरों के बैंक खातों में 1037 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधी हस्तांतरित

संजीवनी टुडे

झुंझुनू/जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सभ्य एवं विकसित समाज सभी वर्गों के विकास के लिए संवेदनशील रहता है। सामाजिक सुरक्षा के रूप में पेंशन जरूरतमंद को आर्थिक संबल देता है साथ ही उन्हें मुख्य धारा से जोड़े रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का दायरा बढ़ाने के साथ ही पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि वृद्धजन, एकल नारी, दिव्यांगजनों सहित सभी वर्गों के उत्थान के लिए हमारी सरकार कतुसंकल्पित है तथा इनके सामाजिक सुरक्षा के आवरण को कमजोर नहीं होने देगी। शर्मा गुरुवार को झुंझुनू में राज्यस्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धि की राशि हस्तांतरण के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बटन दबाकर प्रदेश के 88 लाख से अधिक पेंशनरों के बैंक

खातों में 1 हजार 37 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पं. वीनदयाल उपाध्याय के एकाम्क मानववाद और अंत्योदय की संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए संकल्पित है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के जरिये जरूरतमंदों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में राशि को 1 हजार रूपए से बढ़ाकर 1150 रूपए की है और इसमें चरणबद्ध रूप से वृद्धि की जाएगी। संकल्प पत्र के हर एक वादे को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में लगभग 88 लाख से



अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। हमारी सरकार ने गठन के 6 माह के अल्प समय में 2 लाख 41 हजार से अधिक नए लाभार्थियों को इन पेंशन योजनाओं से जोड़ा है। साथ ही, झुंझुनू जिले में 2 लाख 74 हजार से अधिक लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है, जिन्हें पेंशन के रूप में हर महीने 32 करोड़

27 लाख रुपये हस्तांतरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन पेंशन योजनाओं में डिजिटलकृत प्रक्रिया अपनायी जा रही है, जिससे आज पेंशनरों को बिना किसी परेशानी के योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो रहा है। शर्मा ने कहा कि आजादी के बाद कुछ राजनीतिक दलों द्वारा झूठे वादे किए गए तथा हे, जिन्हें पेंशन के रूप में हर महीने 32 करोड़

नेता प्रतिपक्ष जूली ने की जन सुनवाई, बोले पानी व बिजली की समस्या से लोग परेशान

संजीवनी टुडे

अलवर। नेता प्रतिपक्ष एवं अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली ने गुरुवार को मोती दूंगरी स्थित कार्यालय पर जनसुनवाई की। जनसुनवाई में अलवर जिले सहित प्रदेश भर से बड़ी संख्या में अपनी परिवेदनाएं लेकर लोग पहुंचे जिनके निस्तारण के लिए जूली ने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि भले ही प्रदेश में राज भारतीय जनता पार्टी का हो लेकिन आज भी जनता कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात लेकर पहुंच रही है। उन्हें भाजपा के नेताओं पर विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि अलवर के शहर विधायक और जिले के सांसद शहर और जिले को छोड़कर यात्राओं में मस्त हैं ऐसे में जनता अपनी समस्या किसे बताएंगे। जूली ने कहा कि भाजपा राज में पानी और बिजली की समस्या ने आमजन का जीना दुश्वार कर दिया



है। उन्होंने बताया कि न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहर में भी बिजली की अंधविश्वासी से लोग परेशान हैं वही पानी के लिए जनता तरस रही है जिसके चलते रोज जाम लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलवर में पिछले 20 साल से भाजपा का राज है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने कभी भी पानी की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया वे केवल कोरी राजनीति करते रहे।

राजकीय महाविद्यालय परिसर में नशा मुक्ति पर शपथ कार्यक्रम



संजीवनी टुडे

राजगढ़। राजकीय पी. जी. महाविद्यालय राजगढ़ परिसर में आयुक्तलय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के आदेशानुसार 26 जून 2024 को राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति पर शपथ एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. के. एल. मीना ने बताया कि नशा एक सामाजिक बुराई है। नशा एक ऐसी बुराई है जिससे इसका का अनमोल जीवन समय से हलाने की मांग की जा सकती है। नशा के लिए समाज में शराब, गांजा, अफीम जर्दा, गुटखा, तम्बाकू और धूम्रपान (बीडी, सिगरेट, हुक्का, चिलम) सहित चरस

समैक ब्राउन शुगर जैसे घातक मादक पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है। इन जहरीले और नशीले पदार्थों के सेवन से मानसिक और आर्थिक हानि पहुंचाने के साथ ही इसमें सामाजिक वातावरण भी प्रदूषित होता है। डॉ. आंचल मीना ने अपने उद्घोष में बताया कि कॉलेज में जो नए छात्र आने वाले हैं वे अपने आवेदन के साथ नशा नहीं करने का संकल्प पत्र भी दें। इस अवसर पर महाविद्यालय के डॉ. अशोक मीना, डॉ. जगपूत शर्मा, पी.एम.मीना, डॉ. अनिल कुमार शर्मा, कपिल देव कुण्डर, डॉ. आंचल मीना आदि संकाय सदस्य, विद्यार्थी एवं नरेगा योजना में कार्य करने वाली श्रमिक महिलाओं ने भी नशा छोड़ने की शपथ ली।

मुख्यमंत्री ने जिले के दो लाख छः हजार 561 लाभार्थियों को 24 करोड़ 45 लाख 33 हजार अभिवृद्धित राशि हस्तांतरण कर दी सौगात

संजीवनी टुडे

झुंझुनू/जयपुर। प्रदेश मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश भर के 88 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की अभिवृद्धित 1037 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधी हस्तांतरित कर गुरुवार को वृद्धजनों को सौगात दी। झुंझुनू में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समूचे प्रदेश को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार जरूरतमंदों के साथ हमेशा रहेगी। सरकार महिलाओं, वृद्धजन किसानों तथा युवाओं सहित हर वर्ग के गरीब को गणेश विद्या में काम करते हुए जो संकल्प लिए गए हैं हम उन्हें पूरा कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने लाभार्थियों से सीधा संवाद भी किया। इसी के अन्तर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं गृह रक्षा एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी के मुख्य आतिथ्य एवं पूर्व राज्यमंत्री श्री सुशील कटारा, जिला प्रमुख सुनील अहारी, विधायक सागावाड़ा शंकरलाल डेवा, जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, समाजसेवी हरीश पाटीदार, नगर परिषद सभापति



अमृतलाल कलासुआ, उपसभापति सुदर्शन जैन, समाजसेवी बंशीलाल कटारा के विशिष्ट आतिथ्य में विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री खराड़ी ने कहा कि राज्य सरकार ने जो संकल्प लिए हैं वह पूरे कर रही है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने उज्ज्वला गैस योजना, अभिवृद्धित पेंशन, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं में किए गए संकल्पों को कर पूर्ण करने की धरतल प्रक्रिया शुरू कर दी है और आगे भी हर वर्ग के विकास हेतु प्रभावी ढंग से योजनाओं को लागू किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री का पेंशन अभिवृद्धि

करने पर आभार व्यक्त किया। इस मौके पर पूर्व राज्यमंत्री सुशील कटारा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जो कहा वह कर दिखाया है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 जैसी योजनाओं को लागू कर प्रतिक्रिया को दर्शाया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बड़े जल स्रोतों का सही सदुपयोग हो सके। इसके लिए प्रशासन प्रभावी योजनाओं का प्रस्ताव बनाए। साथ ही गरीबों को योजनाओं का सही लाभ मिल सके। इसके लिए ई-मित्रों पर प्रभावी मॉनिटरिंग की बात कही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला प्रमुख सुनील अहारी ने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही

संगोष्ठी का आयोजन किया



संजीवनी टुडे

सेडवा। उपखण्ड मुख्यालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय सेडवा में आज नये कानून की जानकारी देने के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया मास्टर ट्रेनर भुवनेश कुमार द्वारा 1 जुलाई 2024 को प्रकाशित नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय साक्षरता अधिनियम की जानकारी के साथ नये व पुराने कानूनों में अंतर को स्पष्ट किया और नये कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में बताया गया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अलवर में पिछले 20 साल से भाजपा का राज है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने कभी भी पानी की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया वे केवल कोरी राजनीति करते रहे।

सांसद प्रत्याशी कन्हैयालाल मीना ने की एसआईटी गठन की मांग, एसीपी मानसरोवर को सौंपी जांच

शिवदासपुरा थाना प्रभारी सहित पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज

संजीवनी टुडे

चाकसू। बीती रात शिवदासपुरा पुलिस की ओर से डिटेंड कर लाये युवक को तबियत बिगड़ने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और घायल युवक के भाई प्रहलाद शर्मा ने अपने भाई के साथ मारपीट करने के आरोप में शिवदासपुरा थाना प्रभारी रणजीत सिंह सहित थाने के अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वही प्रकरण की तपतीश मानसरोवर एसीपी संजय शर्मा कर रहे हैं। वही दूसरी ओर दौसा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा ने घटना को बहुत बड़ा गम्भीर बताते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से एसआईटी की टीम गठित कर जांच करवाने की मांग की है। वही साथ उन्होंने घायल का जो ईलाज चल रहा है। उसकी भी निशुल्क उपचार की मांग रखी है। वही घायल कैलाश शर्मा की हालत में पहले की तुलना में सुधार बताया जा रहा है। वही अस्पताल में पहुंचकर पीड़ित कैलाश की



कुशलक्षेम जानी हैं। वही इधर, पुलिया द्वारा पीड़ित उसके साथ गिरफ्तार किये गए 2 अन्य युवकों को जमानत पर छोड़ दिया गया है। वही घटना को लेकर चाकसू विधायक रामावतार शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों से घायल की हालत जानी परिजनों को डांडस बंधवाया तथा इस प्रकरण की जांच करवाने के साथ दोषियों पर शख्त कार्रवाई की बात कही है। गौरतलब है कि बीती 25 जून की रात्रि को शिवदासपुरा पुलिस ने चन्दलाई निवासी कैलाश शर्मा को टोल प्लाजा से

सम्मान समारोह मे युवा प्रतिभाओं का किया सम्मान



संजीवनी टुडे

पीपलू। ग्राम झिराना में अम्बेडकर युवा छोटा बड़ा संस्थान के द्वारा गुरुवार को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान दसवीं कक्षा के राहुल बैरवा, शुभम बैरवा, महेश बैरवा, हिमांशु बैरवा व खुशीराम बैरवा तथा बारहवीं कक्षा की हिमांशी बैरवा, विकास बैरवा, खुशी गांगोदिया तथा सकारा सेवा में चयनित इम्प्ल प्रमिला भटनगर, लैब टेक्नीशियन रोहित बैरवा आदि को माला पहनाकर व बाबा साहब की

प्रतिमा देकर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अध्यापक गोपाल बैरवा ने बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला और संस्थापक कवि राजकुमार धवन ने शिक्षा के साथ-साथ बाबासाहेब के मिशन को भी बहुत जरूरी बताया, इसके साथ साथ कजोड़ बैरवा, प्रहलाद बैरवा, राजेश पेंटर, रामकिशोर बैरवा, वार्ड मेम्बर मुकेश बैरवा, सुखलाल बैरवा आदि ने भी अपना संबोधन दिया। भाभासाह भीम प्रकाश धवन, प्रकाश धवन, प्रभु धवन ने संस्था के लिए आर्थिक सहायता दी, इस दौरान मंच संचालन बनवारी लाल बैरवा द्वारा किया गया।

मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रशंसा पत्र देकर किया सम्मानित




संजीवनी टुडे

चाकसू। कस्बे में स्थित ब्लूमिंग लिलीज स्कूल कोट का मोहल्ला में गुरुवार को मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मानित समारोह आयोजित किया गया और इस दौरान निदेशक डी.पी. सैनी ने बच्चों को उनकी पोटेशियल रिस्क से अवगत कराया और आशीर्वाद प्रदान कर इसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई और मेधावी छात्रों के सम्मान समारोह के अंतर्गत स्कूल के प्रधानाध्यापिका आरती सैनी ने बच्चों की प्रगति व बच्चों की पढ़ाई को लेकर जानकारी दी और माला पहनाकर और सम्मानित किया गया सम्मान समारोह में व्यवस्थापक प्रहलाद मीणा ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा निर्दिष्ट तौर पर बधाई के पात्र है। और उनका उत्साह बढ़ाया और सम्मान समारोह में अन्य अध्यापक गण पूजा शर्मा, अंकित सैनी, रमाकांत शर्मा, पूजा सैनी, विजयलक्ष्मी शर्मा, गिरांज प्रजापत सहित विद्यालय के छात्र-छात्राओं सहित उनके परिजन सहित अन्य लोग भी साथ में मौजूद रहे हैं।

खबरें फटाफट

युवा कांग्रेस द्वारा श्री निवास बीवी के नेतृत्व में संसद का घेराव किया



संजीवनी टुडे

नई दिल्ली। युवा कांग्रेस द्वारा श्री निवास बीवी के नेतृत्व में संसद का घेराव किया गया। पेपर लीक के विरुद्ध और छात्र शक्ति के सम्मान में पूरे देश से आज दिल्ली में जमा हुए भारतीय युवा कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता, भारत के विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। राजस्थान से भी बड़ चढ़कर युवा दिल्ली पहुंचे और इस कार्यक्रम को बल प्रदान किया। चाकसू गणेशपुरा से महासचिव राजस्थान युवा कांग्रेस कृष्ण मोहन शर्मा ने बताया कि संसद घेराव में तानाशाही सरकार का पूर्ण विरोध किया हजारों कार्यकर्ता हॉस्पिटल में भर्ती है सत्ताधारी पार्टी को उन बिंदुओं से अवगत कराया जिन बिंदुओं को वह भूल चुकी है महासचिव कृष्ण मोहन शर्मा को पुलिस ने चारोतरफ से घेर कर गिरफ्तार किया और इसी दौरान गिरफ्तारी दिल्ली में गिरफ्तारी दी।

कार में अवैध अंग्रेजी शराब परिवहन कर गुजरात ले जाते शराब व कार जब्त, अभियुक्त गिरफ्तार



संजीवनी टुडे

सलुम्बर झिल्ला पुलिस ने कार में अवैध अंग्रेजी शराब परिवहन कर गुजरात ले जाते शराब व कार जब्त की साथ ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। झल्लारा थानाधिकारी धर्मेश सिंह वाघेला ने बताया की थाना झल्लारा मय टीम द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब के विरुद्ध कार्यवाही हेतु झल्लारा थाने के सामने दौरेना नाकाबन्दी एक सफेद रंग की बलैनो कार में कार की बॉडी सीटों के निचे पाटीशन कर अन्दर भरी राजस्थान निर्मित विभिन्न ब्राण्ड अंग्रेजी शराब की कुल 7 पेट्टी शराब व कार को जब्त किया गया साथ ही अभियुक्त मांगीलाल (45) पिता लक्ष्मीनारायण सुथार निवासी बनोडा ओरा बावजी मन्दिर के पिछे थाना सलुम्बर जिला सलुम्बर को गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध प्रकरण आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया जाकर अग्रिम अनुसंधान जारी है।

करंट लगने से मासूम की मौत



संजीवनी टुडे

सलूबूक (सलूबूक जिले के लकापा गांव में घर के बाहर खेलते समय विद्युत पोल के संपर्क में आने से सात वर्षीय मासूम की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हिमांशु (7) पुत्र वालू राम मीणा निवासी लकापा रोज की तरह अपने घर के पास खेल रहा था। खेलते-खेलते करंट के चपेट में आने से झुलस गया जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जहां डॉक्टरों ने जांच कर हिमांशु को मृत घोषित कर दिया।

वृद्धाश्रम में 8 साल रहे बसंतिलाल की देह मेडिकल कॉलेज को दान



संजीवनी टुडे

भीलवाड़ा। मंगरोप रोड स्थित ओम शांति सेवा संस्थान वृद्धाश्रम में आठ साल से निवासरत बसंतिलाल हिरण (मंगपुर वाले) का निधन हो गया। उनकी देह आरवीआरएस मेडिकल कॉलेज को दान की गई। निधन से पहले देहदान का निर्णय बसंतिलाल ने खुद वृद्धाश्रम के ट्रस्टियों और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की उपस्थिति में लिया था। वृद्धाश्रम के संस्थापक सदस्य राकेश काबरा ने बताया कि दान प्रक्रिया सभी नियमों की पालना के साथ पूरी की गई। मृतक और उनके परिजन की लिखित सहमति व जरूरी दस्तावेज तैयार व सत्यापित कराए। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. वर्षा सिंह एवं प्रतिनिधि डॉ. चेतन सामरा ने देहदान के लिए आभार जताया। वृद्धाश्रम अध्यक्ष सत्यनारायण मूंदड़ा, सचिव सुभाष चौधरी, राजकुमार बुलिया, शांतिलाल बाबेल, पंकज सूर्या, राधेश्याम सोमानी, नरेश सोमानी, दिनेश अजमेरा, सुरेंद्र सांखला, नवीन काकानी आदि मौजूद थे।

प्रशासन ने नहीं की जांच, पंद्रह साल में तीन आंगनबाड़ी केंद्र हुए खंडहर

संजीवनी टुडे

टोंक स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के चलते निर्माणाधीन भवनों में लगाई जाने वाली निर्माण सामग्री की जांच तक नहीं होने के कारण भवन कुछ ही समय में नकारा साबित हो जाते हैं। कस्बे के तीन आंगनबाड़ी केंद्र खंडहर में तब्दील हो गए। महज पंद्रह वर्ष के अंतराल में अलग-अलग जगह लाखों की लागत के तीन आंगनबाड़ी केंद्र भवन जर्जर हो चुके हैं। एक भवन तो बनने के महज डेढ़ से दो वर्ष के बीच ही धराशाही हो गया। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कार्यकारी एजेंसी व संवेदक के खिलाफ कार्रवाई तो दूर जांच तक नहीं की गई। इससे कस्बे में संचालित सभी सात आंगनबाड़ी केंद्र पिछले कई वर्षों से किराए के भवन में संचालित करने पड़ रहे हैं। जहां जगह के अभाव के साथ ही शौचालय व अन्य अनुविधाओं का अभाव बना हुआ।

वन माता मंदिर

वन माता मंदिर के करीब बना आंगनबाड़ी केंद्र संख्या एक बनने के दो वर्ष के अंतराल में में ही छत धराशाही हो गई। दीवारों में दरारें आ गईं। नौनिहालों

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात शाखा का विशेष अभियान जुलाई के प्रथम सप्ताह में

संजीवनी टुडे

प्रमुख चौराहों पर वाहन चालकों को फूल देकर किया जागरूक

चित्तौड़गढ़। जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात नियमों की पालना हेतु यातायात पुलिस का विशेष अभियान जुलाई के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होने वाला है। अभियान से पूर्व यातायात शाखा के पुलिस कर्मियों द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों पर वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु फूल देकर जागरूक किया। पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर जोशी ने बताया कि जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने व आमजन को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए शहर चित्तौड़गढ़ में जुलाई के प्रथम सप्ताह में यातायात पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें नो पार्किंग में वाहन खड़ा नहीं करना, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, चार पहिया वाहन में शीशे पर काली फिल्म का उपयोग नहीं करने, हाई सिक्वोरिटी नंबर प्लेट लगाने, बिना लाइसेंस के वाहन नहीं चलाने, यात्री वाहन में क्षमता से अधिक सवारी परिवहन नहीं करने, भार वाहनों में यात्री परिवहन नहीं करने, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करें, नशे में वाहन



के जीवन के सखतरे को मध्य नजर रखते हुए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र को लाभग पांच वर्षों से दूसरी जगह किराए के भवन में संचालित करना पड़ रहा है।

केन्द्र संख्या द्वितीय

मेघवाल मोहल्ले में बना आंगनबाड़ी केंद्र संख्या द्वितीय। जो बनने के एक वर्ष बाद ही बारिश में छत टपकने लगी। भवन की दीवारों में दरारें आने

लगी। भवन की पर्स में गड्ढे पड़ गए। धराशाही होने के डर से बच्चों को अन्यत्र किराए के भवन में पढ़ाना पड़ रहा है।

केन्द्र संख्या छह

गांव के छतरी चौराहे पर फतवारी मंदिर परिसर में बनाया गया आंगनबाड़ी केंद्र संख्या छह। जहां दो वर्ष में ही पर्स उखड़ गई। भवन के चारों तरफ आवा

उप कारागृह निबाहेड़ा का निरीक्षण किया



संजीवनी टुडे

निबाहेड़ा। जिला चित्तौड़गढ़ कलेक्टर महोदय ने आज 27 जून 2024 को उप कारागृह निबाहेड़ा का निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं अच्छी पाई गई किसी बंदी के द्वारा किसी प्रकार की कोई समस्या जाहिर नहीं की गई कलेक्टर साहब ने कारागृह के लिए आवंटित जमीन पर नवीन जेल बनाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिए साथ में उपखंड अधिकारी विकास पंचोली एवं तहसीलदार निबाहेड़ा कार्यवाहक इंचार्ज युवराज सिंह एवं कारागृह स्टाफ मौजूद रहा।

शारीरिक शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री को स्टार्किंग पैटर्न सहित 16 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया



संजीवनी टुडे

भटेवर। राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हनुमंत चौधरी ने आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को स्टार्किंग पैटर्न सहित शारीरिक शिक्षकों एवं खिलाड़ियों से संबंधित 16 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया। ज्ञापन में शिक्षा मंत्री से मांग की गई कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्टार्किंग पैटर्न शुरू किया जाए साथ ही उपजिला शिक्षा अधिकारी शा. शिक्षा के पदों की पदेन-निति कर नियुक्ति की जाए, प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपजिला शिक्षा अधिकारी शा. शिक्षा के पद स्वीकृत किये जायें व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में व्याख्याता शा. शिक्षा का पद स्वीकृत किया जाए, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास लिए राइट टू प्ले का कानून बनाया जाए, तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षकों के स्थानांतरण किये जायें, प्रत्येक विद्यालय में छात्र संख्या की बाधता को

समाप्त कर शारीरिक शिक्षक का पद स्वीकृत किया जाए, दो या दो से अधिक फेकल्टी वाले विद्यालयों में व्याख्याता शा. शिक्षक पद व साथ में तृतीय श्रेणी शा. शिक्षक के पद स्वीकृत किये जायें, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में एमपीएड व एनआईएस कोचिंग डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाए। प्रदेश महामंत्री डॉ. भरुं सिंह राठौड़ ने बताया कि ज्ञापन में मांग की गई है कि खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता 300 रुपए किया जाए, कक्षा 10 तक शारीरिक शिक्षा के अंक श्रेणी सुधार के लिए जोड़े जाए व निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाए, स्पोर्ट्स कोर्ट की भर्तियों में नेशनल खिलाड़ियों को घटते क्रम में आरक्षण का लाभ दिया जाए। उदयपुर जिला मीडिया प्रभारी गोपाल मेहता मेनारिया के अनुसार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक मॉडल स्पोर्ट्स स्कूल खोला जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया।

बाईक धीरे चलाने को कहा तो अथेड के साथ बाइक सवारों ने की मारपीट, पुलिस ने किया गिरफ्तार

संजीवनी टुडे

सरडा। सरडा में तीन बदमाशों द्वारा एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जहां पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन गिरफ्तार किया। प्रार्थी शंकर लाल पिता थावरा मीणा निवासी बलुआ फला बरोडी ने रिपोर्ट देकर बताया की 26 को शाम करीब 7.30 से 8 बजे सरडा में खुबीलाल जैन की दुकान के सामने मेरे सालाजी और मैं मोटर साईकिल से आ रहा था सामने से तेज गति लापरवाही से गलत साइड पर 220 बजाज मोटर साईकिल लेकर 3 बदमाश आए मैंने चलते हुए कहा भईया धीरे चलो अभी गाड़ी लग जाति इतना बोल कर मैं सरडा इंडियन पेट्रोल पंप तेल भरवाने चला गया बद्माश मेरा पिछा करते हुए पंप पर आए रिपोर्ट देते हुए बताया कि मेरे जान को खतरा बना हुआ है मोटरसाईकिल वाले बदमाशों की खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाए। सरडा थानाधिकारी राजेश कुमार ने बताया की पुलिस टीम ने तीनों को गिरफ्तार किया। वही तहसीलदार के समक्ष पेश किया जहाँ से थारा 151 में पाबंद किया गया।

बीएसटीसी के पेपर खराब होने पर युवती ने दी जान, 9 दिन पहले परीक्षा देकर लौटी थी

रामगढ़ पंचवारा थाना क्षेत्र के बासड़ा गांव निवासी एक युवती ने बीएसटीसी के पेपर खराब होने के चलते बुधवार रात्रि अपने घर पर खुदकुशी कर ली

संजीवनी टुडे

दौसा/लालसोट। रामगढ़ पंचवारा थाना क्षेत्र के बासड़ा गांव निवासी एक युवती ने बीएसटीसी के पेपर खराब होने के चलते बुधवार रात्रि अपने घर पर खुदकुशी कर ली। युवती 9 दिन पूर्व ही परीक्षा देकर भाई के साथ लौटी थी और पेपर खराब होने से युवती परेशान चल रही थी। एएसआई हंसराम ने बताया कि बुधवार रात्रि रामगढ़ पंचवारा उप जिला हॉस्पिटल से सूचना मिली थी कि सुनीता (18) पुत्री रामस्वरूप मीना निवासी बासड़ा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस पर पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के अनुसार युवती के भाई अंकित कुमार मीना ने प्राथमिकी देकर बताया कि बुधवार रात उसकी बहन कमरे में सोने गई थी। घरवाले दूसरे कमरे में सो रहे थे।



रात को 12 बजे लाइट जाने पर मां कमरे में गई तो वहां सुनीता पंखे पर बनाए फंदे पर लटकी हुई मिली। इसके बाद फंदे से नीचे उतारा और

पशुओं का जमावड़ा लगने लगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ही परेशान रहते बच्चों को लेकर यह केंद्र भी अन्यत्र किराए के भवन में संचालित करना पड़ रहा है।

अब नए निर्माणधीन केंद्र की नहीं जांच

कस्बे में सरकार की ओर से बने तीन आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनने के बाद महज पांच से पंद्रह वर्ष के अंतराल में नकारा साबित हो चुके हैं। इन दिनों फिर से चौथा आंगनबाड़ी केंद्र के भवन का निर्माण कार्य रेंग बस्ती में करवाया जा रहा है। जहां उच्चधिकारियों की ओर से निर्माण सामग्री की जांच तक नहीं की जा रही है। जिससे लोगों को फिर से घटिया निर्माण सामग्री की आशंका सताने लगी है।

ऐसा है तो राजमहल में जितने भी विकास कार्य इन दिनों हुए हैं। उसकी जांच कराएंगे। घटिया निर्माण सामग्री व नियमविरुद्ध कार्य किए गए हैं तो कार्रवाई की जाएगी।

रानू ईकिया, विकास अधिकारी पंचायत समिति देवली

शिक्षकों ने गैर शैक्षणिक कार्यों का विरोध जताया और स्थाई स्थानांतरण नीति बनाने की मांग

संजीवनी टुडे

भटेवर। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के वल्लभनगर उपशाखा क्षेत्र में चल रहे सदस्यता अभियान के दौरान शिक्षकों की विभिन्न समस्याएं उभर कर सामने आ रही है। वल्लभनगर उप शाखा हरिप्रसाद चौबीसा उपशाखा मंत्री कमलेश कुमार वैरागी, जिला कोषाध्यक्ष मंगल कुमार जैन ने सदस्यता अभियान के तहत आज महात्मा गांधी प्रा. वि. जाटों का खेड़ा, उ.प्रा.वि. रोही खेड़ा, उ. मा. वि. मोड़ी, उ.मा.वि. बालिका मोड़ी, उ.मा.वि. पिडोल्या, उ.प्रा.वि. चौड़ा, उ.मा.वि. बाठरडा कला के शिक्षकों को समस्याएं सुनी व वार्षिक सदस्यता की। जिला मिडिया प्रभारी गोपाल मेहता मेनारिया ने बताया कि जिला कोषाध्यक्ष मंगल कुमार जैन ने शिक्षक संघ राष्ट्रीय को सरकार द्वारा मान्यता दिलाने के लिए संगठन की सदस्यता को आवश्यक बताया और सभी शिक्षकों को सदस्यता लेने का आह्वान किया। उपशाखा



अध्यक्ष हरिप्रसाद चौबीसा ने बताया कि विभिन्न विद्यालयों की बकाया एमडीएम व्यय राशि दिलाने, अधिशेष शिक्षकों के ओफलाईन आवेदन किये एसीपी के आदेश जारी कराने, उड़ान कार्यक्रम के तहत विभिन्न विद्यालयों को उपलब्ध करायें सेनेटी नेपकिन वितरण की सूचना सीबीओ कार्यालय द्वारा समय पर अद्यतन करने, टीएसपी से नॉन टीएसपी में भेजे गए शिक्षकों की जिला कार्यालय से गत वर्ष की बकाया उपस्थिति पत्र जारी कराने, व समस्त प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त रखने, स्थाई

स्थानांतरण नीति बनाकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों सहित सभी श्रेणी के शिक्षकों का स्थानांतरण करने आदि समस्याओं को हल कराने के लिए संगठन का प्रतिनिधि मंडल सीबीईओ और डीईओ से मिलकर शीघ्र समाधान की मांग करेगा। इस दौरान मोड़ी में संगठन के पूर्व वरिष्ठ पदाधिकारी दुर्गा शंकर जोशी व हरीश सुथार से सदस्यता अभियान को सफल बनाने व उदयपुर जिला मुख्यालय पर बन रहे संगठन के कार्यालय भवन निर्माण कार्य की प्रगति व सहयोग राशि संग्रह करने पर चर्चा की।

प्रशिक्षु आईएस का नवाचार: नाली से कचरा निकाल कर स्वच्छ भारत मिशन अभियान का किया आगाज

संजीवनी टुडे

अलवर/मालाखेड़ा। प्रशिक्षु आईएस ने सामान्य से अलग हटकर जिलेभर में पहला नवाचार पंचायत समिति मालाखेड़ा की ग्राम पंचायत बालेटा से किया। उन्होंने पूरी पंचायत समिति को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए स्वयं ने नाली से कचरा उठाकर अभियान शुरू किया। बुधवार को इस ग्राम पंचायत मुख्यालय से स्वच्छ भारत मिशन अभियान को सफल और सरकार बनाने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। देखते ही देखते इस गांव के पंच, सरपंच व अन्य कर्मचारी भी उनका अनुसरण करते हुए सड़क के दोनों ओर नाली, सड़क पर बिखरे कचरे को इकट्ठा करने में जुट गए। सभी हाथों में रत्नस पहने हुए थे, जिससे किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं हो। प्रशिक्षु आईएस कार्यवाहक विकास अधिकारी सोनू कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर जन जागरूक रैली को रवाना किया। रैली में आमजन की उपस्थिति के अलावा महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा, शक्तिता, पंचायतीराज व जनप्रतिनिधि शामिल हुए। प्रशिक्षु आईएस सोनू कुमारी ने कहा कि पहला सुख निरोग काया तब ही संभव है, जब सफाई और स्वच्छता रहेगी। स्वच्छ भारत मिशन का



आगाज पंचायत समिति मालाखेड़ा की ग्राम पंचायत बालेटा से शुरू किया गया है। यहां पर जला व सूखा कचरा इकट्ठा करने के लिए कचरा प्रबंधन का निर्माण कराया गया है।

कचरे का किया निस्तारण

मुख्य सड़क की नाली से कचरा उठाते हुए रिश्ता के माध्यम से गांव से बाहर डेढ़ किलोमीटर दूर बने कचरा प्रबंधन में कचरा निस्तारित किया गया। इस दौरान यहां के सरपंच हजारीलाल मीणा, अतिरिक्त विकास अधिकारी विश्राम प्रजापत, स्वच्छ भारत मिशन के ब्लॉक समन्वयक चंद्रेश मिश्र, वार्ड पंच, समाजसेवी, आंगनबाड़ी की

महिलाएं व अन्य ने आगे आकर सहयोग किया। करीब 3 घंटे के इस स्वच्छ भारत मिशन अभियान में सहयोग करते हुए आबादी क्षेत्र के वार्ड को साफ और सुंदर बनाने का सफल प्रयास किया। पंचायत समिति की समस्त ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन को पूरी तरीके से लागू करने के लिए यह अभियान जारी रहेगा। सरपंच हजारीलाल मीणा ने कहा कि विकास अधिकारी मालाखेड़ा ने नई पहल शुरू की है, जिसमें पूरे गांव के लोगों ने सहयोग किया है। इस गांव को साफ, सुंदर-स्वच्छ बनाने में पूरी मदद और मेहनत करेंगे, जिससे इस गांव का नाम पूरे जिलेभर में रोशन हो, ऐसा काम करते रहेंगे।

ज्वेलर्स की दुकान से चोरी का एक आरोपी गिरफ्तार, सोने की एक अंगूठी बरामद

संजीवनी टुडे

चित्तौड़गढ़। बस्सी कस्बे में ज्वेलर्स की दुकान पर आभूषण खरीदने आये एक पुरुष व एक महिला द्वारा आभूषण देखने के दौरान एक सोने की अंगूठी चोरी करने के मामले का बस्सी थाना पुलिस ने त्वरित खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उससे चोरी की अंगूठी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर जोशी ने बताया कि गत मंगलवार को बस्सी निवासी बनवारी लाल पुत्र रतनलाल आगाल ने बस्सी थाने पर दी गई एक रिपोर्ट में बताया कि 19 जून को दोपहर में एक पुरुष, एक महिला व एक छोटा बच्चा ग्राहक बनकर उसकी दुकान आए। ज्वेलर्स बस्सी पर आये। उन्होंने सोना व चान्दी के आइटम देखे उसमें से चांदी के कड़े व अंगूठी उन्होंने खरीदी और चले गए। उसके बाद शिकायत को दुकानदार ने स्टॉक का भित्ति नाम का एक आरोपी अंगूठी वजन चार से पांच ग्राम की जिस पर हॉलमार्क 91.6 लिखा हुआ था वो



नहीं मिली, वो अंगूठी भी उन्होंने देखी थी। उसने दुकान पर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देखा तो वह व्यक्ति अंगूठी लेते हुए नजर आ रहा है। उस दिन जो सामान लिया उस पर बिल में सुरेश गायत्री गायरिवास का लिखा हुआ था। इसके आधार पर उसने गायरिवास में जाकर मालूम किया तो इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था और जो मोबाइल नंबर लिखवाया था उसे पर संपर्क किया तो वह भी बंद पाया गया। रिपोर्ट पर थाना बस्सी पर प्रकरण दर्ज कर वॉचिंत आरोपियों की तलाश व धड़पकड के तहत एएसपी परबतसिंह के निर्देशन

एवं वृत्ताधिकारी ग्रामीण चित्तौड़गढ़ शिव प्रकाश टेलर के पर्यवेक्षण में एएसपीओ जयेश पाटीदार उन थाना बस्सी द्वारा गठीत टीम एएसआई लालचन्द व जाता कानि अनिल व नारायणलाल द्वारा सीसीटीवी फुटेज व तकनीकी आधार पर आरोपी चंगेडी थाना सदर निम्बाहेड़ा निवासी 34 वर्षीय सावरलाल पुत्र उदयलाल बावरी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से सोने की अंगूठी बरामद की गई। आरोपी सावरलाल को गुफ्तार को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमाण्ड प्राप्त किया गया। विस्तृत अनुसंधान जारी है।

डिजिटल सिस्टम से होगी सेहत की रखवाली

हैल्थ संवाददाता

हर इंसान चुस्त-दुरुस्त रहना चाहता है। नए साल के मौके पर हैल्थकेयर इंडस्ट्री आपके लिए खास चीजें लेकर आने वाली है।

जैसे-जैसे समय गुजरेगा आपको पता लगेगा कि अब सेहतमंद रहना आपकी मुट्ठी में है। आप चाहें तो स्मार्टफोन की मदद से भी स्वस्थ रह सकते हैं। अब डॉक्टर्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी। आपको किसी भी समय, कहीं भी बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मिल जाएंगी।

घंटों वर्कआउट से पसीना बहाया और अपनी पसंदीदा खाने की चीजों से समझौता भी किया। हर उस डाइट को अपनाने की कोशिश की जो कुछ दिनों में काया पलटने के दावे करती थी। इन सबके बाद भी वजन कम न हो तो प्रश्न उठता है कि आखिर करें तो क्या? विशेषज्ञ कहते हैं कि यह एक दिन की दौड़ नहीं मैराथन है। अच्छे नतीजों के लिए लंबे समय तक तैयारी जारी रखनी होती है। वजन बढ़ना और तमाम प्रयास के बावजूद वजन कम न कर पाना कई बातों पर निर्भर करता है। तनाव, आनुवंशिक कारण, नींद पूरी न होना, थाइरॉइड या मेनोपॉज के दौरान होने वाले हार्मोनल बदलाव वजन बढ़ने का कारण हो सकते हैं। लेकिन यह भी संभव है कि जानकारी के अभाव में आप ऐसी गलतियां कर रहे हों, जो आपकी सभी कोशिशों पर भारी साबित हो रही हैं।

लक्ष्य हो व्यावहारिक

मुंबई स्थित न्यूट्रिशनल माधुरी रुइया के अनुसार, एक हफ्ते में 5 किलो या एक माह में 20 से 25 किलो वजन कम करने जैसे अव्यावहारिक लक्ष्य न बनाएं। धीमी गति से लंबे समय तक वजन कम करने के लिए खुद को तैयार करें। अपने वजन का एक प्रतिशत हर सप्ताह कम करें। अगर आप पुरुष हैं और कद 180 सेमी व वजन 95 कि.ग्रा. है, तो अपना आदर्श वजन निकालने के लिए कद में से 100 घटा दीजिए। इस मामले में यह 80 कि.ग्रा. होगा। अब अगर 15 किलोग्राम वजन कम करना है, तो एक हफ्ते में 950 ग्राम वजन कम करने का लक्ष्य बनाएं। अगले हफ्ते 900 ग्राम, उसके बाद 850 ग्राम। महिलाओं को कद में से 105 कि.ग्रा. घटाना चाहिए। पुरुषों की कमर 36 इंच व महिलाओं की 31.5 इंच से कम होनी चाहिए।

अपने शरीर को समझे

वेलनेस एक्सपर्ट डॉ. शिखा शर्मा अपनी पुस्तक आर यू फीटिंग योर हंगर और योर इमोशंस में लिखती हैं, जिन के कारण शरीर के मेटाबॉलिज्म, संरचना व भावनात्मक प्रतिक्रिया पर असर पड़ता है, पर यह भूमिका केवल 30% होती है। दृढ़ इच्छाशक्ति, सही डाइट व उचित व्यायाम का चुनाव करके वजन कम किया जा सकता है। शरीर के कुल वजन में मांसपेशी, वसा, हड्डी और पानी का वजन शामिल होता है। डॉ. माधुरी कहती हैं, जब सही तरीके से वजन कम करते हैं तो सबसे अधिक वसा कम होती है। मांसपेशियां मजबूत होती हैं। पर लंबे समय तक लो कैलोरी डाइट से मांसपेशियों का द्रव्यमान तो कम होता ही है, वसा का स्तर भी बढ़ता है। पर्याप्त पोषण के अभाव में कमजोरी व थकावट होती है। शरीर का आकार बिगड़ने लगता है। साथ ही वसा व शरीर के आपसी तालमेल में भी गड़बड़ी उत्पन्न होती है। टॉक्सिन पैदा करने वाली चीजें और अपचा भोजन शरीर में विषाक्त तत्वों को बढ़ाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इससे ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में नहीं हो पाता। लिबर कमजोर होता है। बार-बार खाने की इच्छा होती है।

पुरुषों की कमर 36 इंच व महिलाओं की 31.5 इंच से कम होनी चाहिए।

यह एक अकादमिक तथ्य है कि भोजन स्वास्थ्य की आवश्यकता है, स्वाद की नहीं। आज हम भोजन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नहीं, जिज्ञा के स्वाद के लिए करते हैं। शरीर का पोषण करने वाले तत्वों की अनदेखी कर स्वाद का रस प्रदान करने वाले फास्ट फूड एवं जंक फूड को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। भौतिकवादी वर्तमान युग में भोजन को केवल जायके एवं स्वाद की नजर से देखने का कारण डिब्बाबंद आहार एवं फास्ट फूड का रिवाज बढ़ गया है। वैज्ञानिक मान्यता है कि फास्ट फूड आधारित आहार में विद्यमान कैलोरी और वसा हमारी एक

शरीर पर विकृत आहार का प्रभाव

दिन की ऊर्जा जरूरत पूरी करने में समर्थ तो है मगर इसकी आदत पड़ जाने से हम दिन में कई बार इसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। परिणामस्वरूप शरीर में वसा की मात्रा बढ़ने लगती है और हम अनचाहे मोटापे का शिकार बन जाते हैं। डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों में जिन रसायनों का प्रयोग किया जाता है, वे शरीर के न्यूरोहार्मोनल संस्थान पर असर डालते हैं। इन कारण मसूड़ों को आकर्षक एवं तरोताजा रखने के लिए सोडियम बेंजाइक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम साइट्रेट, सल्फर डाइ-आक्साइड, एरोश्रोसीन आदि

मिलाया जाता है। भोज्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले इन रसायनों के असर बताने वाले शोधकर्ता रोंगेट खड़े करने वाले आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। बेंजोइक एसिड बहुत अधिक हानिकारक रसायन है। इसकी हल्की-सी मात्रा भी त्वचा को झूलसाने में सक्षम है। इसकी दो ग्राम मात्रा कुत्ते या बंदर को दी जाए तो वह तुरन्त मर जायेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड तथा कैल्शियम साइट्रेट से आंतों में घाव हो जाते हैं। इनके कारण मसूड़ों में सूजन आ जाती है तथा किडनी क्षतिग्रस्त हो सकती है। सल्फर डाइआक्साइड से उदर-विकार उत्पन्न

होते हैं। एरोश्रोसीन भोजन की नली से लेकर समूचे पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाती है। यही नहीं, डिब्बाबंद आहार के इस्तेमाल से ई. कोलाइ, सालमोनेला, सुजेला क्लेकसुला जैसे जीवाणुओं एवं विषाणुओं का संक्रमण हो जाता है। इससे निमोनिया, बेहोशी, तेज बुखार, मस्तिष्क ज्वर, दृष्टिदोष, सयु विकास, हृदयाघात आदि बीमारियां पनपने लगती हैं। स्वास्थ्य संबंधी इन गंभीर परिणामों को जानते हुए भी फास्ट फूड एवं जंक फूड का बढ़ता रिवाज किसी सामूहिक विनाश को आमंत्रण प्रदान करने के समान है।

एप्स करेंगे सेहत की रखवाली

वर्ष 2015 में हम सबसे देखा कि किस तरह से हैल्थ एप्स ने हमारी सेहत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। साल 2016 में सेहत के लिए हैल्थ एप्स पर निर्भर रहने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा होगा। इन एप्स की मदद से कहीं भी और कभी भी सेहत संबंधी सलाह ली जा सकती है। ये एप्स आपातकालीन स्थिति में काफी मददगार साबित होते हैं। जहां साल 2013 में 16 फीसदी यूजर्स के फोन में कम से कम एक हैल्थ एप हुआ करता था वहीं वर्ष 2015 में यह आंकड़ा बढ़कर 32 फीसदी हो चुका है। कनेक्टेड डिवाइस फिटनेस ट्रेकर तक ही सीमित नहीं रहेंगे। आने वाले समय में ईसीजी मॉनिटर, ग्लूकोज ट्रेकर, कनेक्टेड पेसमेकर का ट्रेंड रहेगा। अपरिहार्य स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ये एप्स सीधे विशेषज्ञों के साथ जानकारीयों शेयर कर सकेंगे जिससे मरीजों को काफी लाभ मिलेगा।

मेंटल हैल्थ पर रहेगा जोर

वर्ष 2016 में वास्तविक ब्रांड ड्रग्स के मुकाबले बायो सिमिलियर ड्रग्स का चलन बढ़ेगा जिससे दवा की कीमतों में भी कमी आएगी। हैल्थ के क्षेत्र में मेंटल हैल्थ पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक सेहत को सुधारने की दिशा में बड़े कदम उठाए जाएंगे। एक शोध के मुताबिक हर पांच में से एक अमरीकी वयस्क मानसिक रोग से ग्रस्त है। सालाना खर्चों रुपयों के मानसिक स्वास्थ्य के बिजनेस के और तेजी से बढ़ने का अनुमान है।

वजन कम न होने की वजह

शुरुआती उत्साह में लोग व्यायाम अधिक करते हैं और खाने कम हैं। नतीजा होता है कि शुरुआत के दो सप्ताह बाद ही शेड्यूल पर कायम नहीं रह पाते। पर्याप्त डाइट के अभाव में मेटाबॉलिक रेट कम होने लगती है। शुरु में तो वजन कम होता है, पर धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। डॉ. माधुरी कहती हैं, शुरुआत आसान व्यायाम से करें। कई तरह के व्यायाम करें, एरोबिक व्यायाम, स्ट्रेचिंग बढ़ाने वाले व्यायाम और क्रॉस ट्रेनिंग। कार्डियो और वेट ट्रेनिंग दोनों में संतुलन बनाएं। कम से कम सप्ताह में तीन बार वेट ट्रेनिंग करें और नियमित 20 मिनट कार्डियो व्यायाम करें।

वसा और कार्बोहाइड्रेट से परहेज

कार्बोहाइड्रेट वे पोषक तत्व हैं जो ऊर्जा में सबसे बेहतर तरीके से परिवर्तित होते हैं। ऐसे में आहार से कार्बोहाइड्रेट को बहुत कम करना यानी कार को बिना ईंधन के चलाना। पूरी तरह कार्बोहाइड्रेट बंद करने की जगह रिफाईंड कार्बोहाइड्रेट जैसे ब्रेड, क्रैकर्स, सफेद चावल, बिस्कुट व मैदा से बनी चीजों को कम करें। घर का बना संतुलित आहार खाएं। भोजन से पूरी तरह वसा यानी चिकनाईयुक्त पदार्थ हटाने से बार-बार खाने की इच्छा बढ़ जाती है। शरीर पोषक तत्वों को ढंग से ग्रहण नहीं करता। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी व कैल्शियम शरीर को नहीं मिल पाते। इसी तरह पूरी तरह ग्लूटन फ्री डाइट यानी गेंदू, जौ व साबुत अनाज न खाना शरीर में फोलेट व फाइबर तत्वों की कमी करता है।

भोजन न करना

यह सही है कि दोपहर में भोजन न करके सीधे रात में भोजन करना आपकी कैलोरी की मात्रा को घटा सकता है। पर भूख और तृप्ति का एहसास कराने वाले ग्लिन और लैप्टिन हार्मोन तभी ढंग से काम करते हैं जब हम हर चार घंटे बाद कुछ न कुछ खाते हैं। खान-पान और व्यायाम से जुड़े अधिक प्रतिबंध भूख लगने की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। दिसंबर 2015 में हुए एक शोध में चूहों के खाने में लंबे अंतराल रखने पर उनमें तृप्ति का एहसास कराने वाले ग्लिन हार्मोन के स्तर में कमी देखने को मिली। जिससे उन्होंने बाद में पहले से अधिक खाया। इससे शरीर की हानिकारक वसा को लाभदायक वसा में बदलने की क्षमता भी कम होती है।

गलत डाइट का चुनाव

हर शरीर की डाइट संबंधी जरूरत अलग होती है। बिना जाने कोई भी डाइट अपनाने से डाइट या तो जेब पर भारी पड़ती है या फिर शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता। लंबे समय तक सूप व सलाद पर आधारित केश डाइट अपनाने से शुरुआत में वजन कम होता है, पर ये स्थायी नहीं रह पाता। डाइट में से पूरी तरह प्रोटीन यानी अंडा, दूध, पनीर और मुर्गी उत्पादों को हटाने से कमजोरी महसूस होती है, मांसपेशियों में अनियमितता आती है, बाल व नाखून टूटते हैं, असमय बुढ़ापा नजर आने लगता है। पोषण व जेब दोनों के अनुकूल डाइट ही स्थायी रह पाती है। हफ्ते में एक दिन कुछ मनपसंद भी खाएं।

उफ! क्या करें... वजन ना हुआ कम



सेहत भी जरूरी

इस बात में कोई तुक नहीं कि आप वजन कम करने के लिए सेहत और शरीर के लिए जरूरी ऊर्जा से समझौता करें। सही तरीके से वजन कम करें। वजन कम करने में बहिया डाइट और व्यायाम का तालमेल बेहद जरूरी है। सभी समूह का भोजन करें यानी ज्वार बाजार आदि साबुत अनाज लें, तो ब्राउन राइस, पनीर, दूध आदि भी लें। कम स्टाच वाली सब्जियां काली मिर्च, गोभी, ब्रोकली व मशरूम भी खाएं, तो कुछ मात्रा में वसा उत्पाद भी। वजन कम करने की प्रक्रिया आसान लगेगी। ऊर्जा का स्तर बना रहेगा।

भोजन न करना

यह सही है कि दोपहर में भोजन न करके सीधे रात में भोजन करना आपकी कैलोरी की मात्रा को घटा सकता है। पर भूख और तृप्ति का एहसास कराने वाले ग्लिन और लैप्टिन हार्मोन तभी ढंग से काम करते हैं जब हम हर चार घंटे बाद कुछ न कुछ खाते हैं। खान-पान और व्यायाम से जुड़े अधिक प्रतिबंध भूख लगने की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। दिसंबर 2015 में हुए एक शोध में चूहों के खाने में लंबे अंतराल रखने पर उनमें तृप्ति का एहसास कराने वाले ग्लिन हार्मोन के स्तर में कमी देखने को मिली। जिससे उन्होंने बाद में पहले से अधिक खाया। इससे शरीर की हानिकारक वसा को लाभदायक वसा में बदलने की क्षमता भी कम होती है।

गलत डाइट का चुनाव

हर शरीर की डाइट संबंधी जरूरत अलग होती है। बिना जाने कोई भी डाइट अपनाने से डाइट या तो जेब पर भारी पड़ती है या फिर शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता। लंबे समय तक सूप व सलाद पर आधारित केश डाइट अपनाने से शुरुआत में वजन कम होता है, पर ये स्थायी नहीं रह पाता। डाइट में से पूरी तरह प्रोटीन यानी अंडा, दूध, पनीर और मुर्गी उत्पादों को हटाने से कमजोरी महसूस होती है, मांसपेशियों में अनियमितता आती है, बाल व नाखून टूटते हैं, असमय बुढ़ापा नजर आने लगता है। पोषण व जेब दोनों के अनुकूल डाइट ही स्थायी रह पाती है। हफ्ते में एक दिन कुछ मनपसंद भी खाएं।

हर जगह फिटनेस क्लासेज

वर्ष 2016 में फिटनेस क्लासेज सबके लिए मुहैया होंगी। कई बड़ी कंपनियां और स्टार्टअप्स इस दिशा में काम कर रहे हैं कि फिटनेस क्लासेज को सबके लिए सुलभ किस तरह से बनाया जाए। इसके साथ ही वियरेबल टेक्नोलॉजी की मदद आप माइंडसेट ट्रेनिंग ले सकेंगे। इससे आप अपने फिटनेस लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। आने वाले समय में छोटे-छोटे समूहों में फिटनेस की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में बेसिक हैल्थ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारीयों शेयर की जाएंगी।

हैल्थ हो जाएगी डिजिटल

वर्ष 2016 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस करने वाले स्टार्टअप्स अपना नजरिया बदलेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हैल्थकेयर सेक्टर पर फोकस करेंगे। मरीज की स्थिति को देखकर मशीनें फैसला ले सकेंगे और दवा व उपचार में मदद कर सकेंगे। हैल्थकेयर इंडस्ट्री में हैल्थ आईटी, मेडिसिन-डिवाइस, बायोटेक, लाइव साइसेज, कन्स्यूमर हैल्थ और वेलनेस जैसी शाखाओं पर विशेष ध्यान दिया जाने लगेगा। डिजिटल हैल्थ का बोलबाला बढ़ेगा। यही नहीं 2016 में हैल्थ इंश्योरेंस को मैनेज करने के लिए नए टूल्स विकसित होंगे और सेहत से जुड़े डाटा का आकार बढ़ेगा। हाईटेक डेटाबेस का विश्लेषण करके मरीज की बीमारी के इतिहास का तुरंत पता लगा लिया जाएगा। इससे मरीज को समय पर सही इलाज मिल सकेगा। मोटापे और डायबिटीज जैसी क्रॉनिक डिजीज से लड़ने के लिए कारगर उपाय सामने आएंगे।

बच्चे के गले में जब फंस जाए सिक्का

तब आजमाएं ये अचूक उपाय



गले में सिक्का अटकने पर

कई बार छोटे बच्चे सिक्का या कोई अन्य चीज निगल लेते हैं, जिससे वह गले में फंस जाती है। ऐसा होने पर बच्चे को खड़ा करके मुंह में रुमाल फंसाते हुए सिर के पीछे की तरफ बांध दें। इससे वह लंबी सांस नहीं लेगा। लंबी सांस लेने से सिक्का अंदर जाकर आंतों में फंस सकता है। फिर आगे की ओर झुकाकर एक हाथ नाभि पर रखें व दूसरे हाथ से थपथपाएं। फंसी चीज बाहर आ जाएगी। नकसीर, चक्कर व लो-हाई बीपी जैसी आम परेशानियां हैं। अगर अचानक कहीं किसी का बीपी लो हो जाए, तो फर्स्ट एड के रूप में इन तरीकों को अपनाकर स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है...

चक्कर आने की स्थिति में

दो चम्मच चीनी व चौथाई चम्मच नमक का घोल बनाकर दें व नाक और मुंह के बीच वाले स्थान को दबाएं। ध्यान रहे चीनी व नमक के घोल वाला उपाय सामान्य लोग ही करें। हाई बीपी व डायबिटीज के मरीज न करें। वे फर्स्ट एड के तौर पर नाक व मुंह के बीच वाले स्थान को दबाने वाला तरीका आजमा सकते हैं।

लो-ब्लडप्रेशर

हथेली-तलवे ठंडे होकर उनमें पसीना आना इसके लक्षण हैं। ऐसा होने पर दोनों हथेलियों व तलवों को 5-10 मिनट तक रगड़ें।

हाई ब्लडप्रेशर

सांस में तकलीफ, घबराहट व पसीना आना इसके लक्षण हैं। ऐसा होने पर आज्ञाचक्र (माथे पर बिंदी लगाए जाने वाला स्थान) को एक से डेढ़ मिनट तक दबाएं। इसके अलावा दोनों हाथों की सबसे छोटी अंगुली के नाखून दबाएं।

सीने में तेज दर्द या जलन


ऐसे में हाथ की कलाई को एक रुमाल से कसकर बांधें व देर किए बगैर अस्पताल ले जाएं। इससे क्लॉटिंग की आशंका कम होगी।

नकसीर फूटने पर

व्यक्ति को जमीन पर सीधा लेटाएं व पैरों को एक से डेढ़ फीट की ऊंचाई पर किसी मेज आदि पर रखें। उसके बाद सिर पर ठंडी पट्टी या आइसबैग रखें व गीली मिट्टी सुंघाएं।

'गेम चेंजर' की 10 दिन की शूटिंग बाकी...

मुंबई। राम चरण की फिल्म 'गेम चेंजर' की रिलीज की तारीख से अभी तक परदा नहीं उठ पाया है। इस फिल्म पर तीन साल से काम चल रहा है, लेकिन अभी तक शूटिंग पूरी नहीं हो पाई। इस वजह से राम चरण के फैंस इसका इंतजार करते-करते थक से गए हैं। इसी बीच, अब फिल्म के निर्देशक की ओर से एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। एक साक्षात्कार में 'गेम चेंजर' का निर्देशन कर रहे शंकर ने बताया कि फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि अब 10 दिन की शूटिंग और बची है। शंकर इन दिनों अपनी एक और फिल्म 'इंडियन 2' के प्रचार में व्यस्त हैं।



लाइफ Style

सोनाक्षी

शादी से पहले ही जहीर को मान चुकी थीं पति एजेसी नई दिल्ली

सोनाक्षी, जहीर इकबाल को 2 साल पहले ही अपना पति मान चुकी थीं। दोनों ने दो साल पहले ही सगाई कर ली थी। फिलहाल, इस पर साफ तौर पर कोई पट्टि नहीं हो गई है कि सोनाक्षी और जहीर की सगाई दो साल पहले हुई थी या नहीं। लेकिन इस समय दोनों अपनी शादी को लेकर टोल किए जा रहे हैं। लोग उनकी शादी को लव जिहाद बताकर उन्हें धमकी दे रहे हैं। कुछ तो इसे हिंदू धर्म का अपमान बता रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने दो साल पहले ही सगाई कर ली थी, ऐसा ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सोनाक्षी की पोस्ट पर यूजर्स कह रहे हैं। दरअसल, रेंडिट पर एक यूजर ने सोनाक्षी की 2 साल पहले की एक पोस्ट शेयर की थी। इस पोस्ट में एक्ट्रेस अपनी अंगूठी फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। ये अंगूठी एक्ट्रेस ने शादी के समय भी पहन रखी थी। एक्ट्रेस की इसी पोस्ट पर यूजर दावा कर रहे हैं कि सोनाक्षी और जहीर दो साल पहले ही सगाई कर चुके थे। रेंडिट यूजर ने सोनाक्षी की एक पोस्ट शेयर की जो खुद एक्ट्रेस ने 2 साल पहले डाली थी। 8 मई, 2022 को शेयर की गई, इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, 'मेरे लिए बहुत बड़ा दिन! यकीन नहीं हो रहा मेरा सपना सच हो रहा है।

सोनाक्षी सिन्हा अपनी शादी के बाद से ही सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। सोशल मीडिया पर उनकी शादी की फोटो और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस बीच सोनाक्षी का 2 साल पुरानी एक पोस्ट भी वायरल हो रही है।



हॉलीवुड मसाला

शूटिंग से ब्रेक लेकर निक से मिलीं

लॉस एंजलिस। बॉलीवुड की देसी गर्ल अब हॉलीवुड में भी मशहूर हो चुकी हैं। इन दिनों प्रियंका चोपड़ा अपनी आगामी फिल्म 'द ब्लैक' की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस फिल्म के लिए वे ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं। वहाँ, अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अपनी कुछ तस्वीरों को साझा किया है। तस्वीरों को देखकर अंजना लगवा जा सकता है कि वे शूटिंग से ब्रेक लेकर अपने पति निक और अपने परिवार से मिलीं हैं। प्रियंका ने एक पोस्ट साझा किया है जिसमें वे वॉन ड्रेस में अपने पति निक सेन क्वालिटी समय बिताती नजर आ रही हैं।




एक्शन-एडवेंचर 'रेड वन' का ट्रेलर जारी

लॉस एंजलिस। अमेजन एमजीएम स्टूडियोज ने बहुप्रतीक्षित एक्शन-एडवेंचर 'रेड वन' का ट्रेलर जारी कर दिया है। फिल्म में डेविन जॉन्सन और क्रिस हवार्स मुख्य भूमिका में हैं। 'जुमाजी रीबूट' के निर्देशक जेक कासद्वन ने फिल्म का निर्देशन किया है। क्रिस मॉर्गन ने हीराम गार्सिया की कहानी पर आधारित फिल्म की पटकथा लिखी है। निमाताओं में हीराम गार्सिया, डेविन गार्सिया, जॉन्सन, मॉर्गन, कसद्वन और मैक्लिन मार शामिल हैं। 'रेड वन' 15 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म में जॉन्सन और मार्वल स्टार क्रिस हवार्स के बीच रोमांचक टॉन-अप दिखाया जाएगा, जिसमें जॉन्सन ई.एल.एफ. के कमांडर कैमल ड्रिफ्ट के किरदार में होंगे।

मेरे बयान को गलत पेश किया जा रहा ...

नई दिल्ली। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ-कुछ होता है जैसी फिल्मों में दिग्गज एक्ट्रेस फरीदा जलाल शाहरुख खान संग काम कर चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया कि शाहरुख और सलमान के साथ उनका यादगार रिश्ता है। एक्ट्रेस ने इस बात का भी खुलासा किया कि उनका शाहरुख से संपर्क टूट गया है, क्योंकि उनका नंबर बदल गया था। वह फिर से शाहरुख से जुड़ना चाहती हैं। लेकिन सेक्रेटरी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। 'मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे पास जो नंबर है, वो शायद पुराने हैं। फरीदा जलाल ने सोशल मीडिया पर शाहरुख खान से संपर्क टूटने के अपने बयान को गलत बताया है। जो कुछ लिखा जा रहा है वो गलत है। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि उनका नंबर बदल गया होगा।



अंडमान में चल रही है सूर्या-44 की शूटिंग

नई दिल्ली। इन दिनों अभिनेता सूर्या अपनी दो फिल्मों को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इनमें एक है- 'कंगूवा' और दूसरी है अस्थायी शीर्षक वाली- 'सूर्या 44'। दोनों ही फिल्मों पर आए दिन नई-नई जानकारी मिल रही है और इसी सिलसिले में इस बार 'सूर्या 44' पर नया अपडेट सामने आया है। 'सूर्या 44' को इन दिनों अंडमान में शूट किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जुलाई के पहले हफ्ते तक अंडमान लोकेशन का शेड्यूल का काम खत्म कर लिया जाएगा। इसके बाद फिल्म की टीम ऊटी जाएगी, जहां इसके अगले शेड्यूल की शूटिंग को लेकर योजना बनाने का काम चल रहा है। 'सूर्या 44' से जुड़ी एक जानकारी यह भी है कि इसके दो गानों को शूट कर लिया गया है। 'सूर्या 44' का निर्देशन कार्तिक सुब्बाराज द्वारा किया जा रहा है।

टीवी मसाला

'बेबी जॉन' में वरुण धवन का भयानक लुक...

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन इन दिनों अपनी अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म 'बेबी जॉन' को लेकर चर्चा में हैं। पहले ये फिल्म 31 मई को रिलीज होने वाली थी। अब क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर को रिलीज होगी। वरुण धवन के फैंस भी उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वरुण धवन हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का एक नया पोस्टर शेयर किया। पोस्टर में उन्होंने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ है। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा है और वह हथियार लिए कई लोगों से घिरे हुए हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'इस साल क्रिसमस और भी मजेदार होने वाला है। 25 दिसंबर को 'बेबी जॉन' की रिलीज के लिए तैयार हो जाइए।' यह खून-खराबा और भी खूनी होने वाला है। इस फिल्म के जरिए कीर्ति सुरेश हिंदी सिनेमा में डेब्यू कर



रही हैं। इसके अलावा, इस फिल्म में वामिका गब्बी भी अहम रोल में दिखेंगी। साथ ही फिल्म में जैकी श्राफ और राजपाल यादव भी नजर आएंगे। वरुण धवन ने पिता बनने के बाद बड़ा कदम उठाया है। जब से उनके घर में बेटी का आगमन हुआ है, तब से वह दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट होने की बारे में भी सोच रहे हैं।

केबीसी 16 के नए प्रोमो के साथ टीवी पर लौटे बिग बी

नई दिल्ली। चर्चित क्विज शो केबीसी के जरिए बिग बी एक बार फिर छोटे पर्दे पर लौट रहे हैं। इस शो का 16वां सीजन आ रहा है। कौन बनेगा करोड़पति 16 का नया प्रोमो जारी हो गया है और इसमें बिग बी एकदम अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। बिग बी कहते दिख रहे हैं, 'जिंदगी है, हर मोड़ पर सवाल पूछेगी, जवाब तो देना होगा!' इस शो में अमिताभ बच्चन प्रतिभागियों से सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल पूछते नजर आते हैं। सवाल पूछने के साथ-साथ वे अपनी जिंदगी से जुड़े तमाम रोचक किस्से भी सुनाते हैं। यह पारिवारिक शो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हो चला है और हर सीजन का बेसब्री से इंतजार रहता है। शो के नए सीजन को लेकर भी यही उत्सुकता है। अब शो का प्रोमो आ गया है। दिलचस्प बात यह है कि प्रोमो एक या दो नहीं, बल्कि तीन आए हैं। सोनी की तरफ से जारी किए गए तीनों प्रोमो में दिखाया गया है कि आप जीवन की किसी भी स्थिति में हों, कुछ भी फैसला करें, समाज आपसे सवाल करेगा और आपको जवाब देना होगा। अमिताभ बच्चन भी तीनों प्रोमो के आखिर में यही टैगलाइन बोलते दिख रहे हैं।

राखी ने की उर्फी की खिंचाई कहा- जब अनुभव नहीं है तो मत बोलो

नई दिल्ली। 'बिग बॉस ओटीटी 3' के अरमान मलिक और कृतिका मलिक और पायल मलिक के साथ उनके एक से ज्यादा शादी की हर तरफ चर्चा हो रही है। एक तरफ जहां मनोरंजन जगत से ऐसे लोग हैं, जिन्होंने इस कदम के लिए अरमान की आलोचना की है। वहीं कुछ दिन पहले, उर्फी आदमी के समर्थन में सामने आईं और कहा कि अरमान और उनकी परिवार उन सबसे अच्छे लोगों में से हैं, जिन्हें उन्होंने जाना है और बहुतबिनाह अभी भी मौजूद हैं। अगर वे तीनों एक साथ खुश हैं, तो उन्हें अपने इस फैसले पर रहने दिया जाना चाहिए। उर्फी के इस बयान की राखी सावंत ने खुद आलोचना की है। उन्होंने कहा कि चूंकि वह शादीशुदा नहीं हैं, इसलिए उन्हें इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। राखी ने यह भी कहा कि अरमान की पहली पत्नी पायल बिल्कुल भी खुश नहीं हैं।



दर्शकों के दिलो-दिमाग में बस गई हैं कई भूमिकाएं

'कल्कि 2898 एडी' ही नहीं, इन फिल्मों में भी कमाल कर चुके हैं कमल हासन

मुंबई। नाग अश्विन के निर्देशन में बनी फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' गुरुवार को रिलीज हो गई है। इसमें प्रमास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण के अलावा कमल हासन भी अहम भूमिका में हैं। फिल्म में कमल हासन विलेन सुप्रीम चारिस्म के रोल में हैं। कमल हासन का सिनेमा की दुनिया में अलग कद है। यूं तो वे साउथ सिनेमा से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बॉलीवुड में भी उन्होंने अपने अभिनय का कमाल दिखाया है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी उनके प्रशंसकों की कमी नहीं है। उनके अभिनय का कमाल है कि कई भूमिकाएं दर्शकों के दिलो-दिमाग में बस गई हैं।

एक दूजे के लिए (1981)

'एक दूजे के लिए' कमल हासन की बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म थी। इसमें उनके अपोजिट रति अम्बिहोत्री नजर आईं। फिल्म 'ब्लॉकबस्टर' साबित हुई थी, जिसमें कमल हासन को हिंदी पट्टी में रात-रात सुपरस्टार बना दिया था। इसकी कहानी एक साउथ इंडियन आदमी पर आधारित है, जिसे एक नॉर्थ इंडियन लड़की से प्यार हो जाता है। इस फिल्म में कमल हासन धाराप्रवाह हिंदी बोलते नजर आए।

सदना (1983)

फिल्म 'सदना', तमिल फिल्म 'मूद्रम पिराई' का हिंदी वर्जन थी। इसमें कमल हासन और श्रीदेवी लीड रोल में नजर आए। इसकी मूल फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग के लिए हासन को नेशनल अवार्ड मिला था। इसमें

सागर (1985)

इसमें एक आदमी एक लड़की को वैश्यालय से बाहर लाता है। बेन इंडरी के चलते याददाश्त गुम हो जाने के चलते वह एक 6 साल की लड़की को तरह व्यवहार करने लगती है।

अपू राजा (1989)

इस फिल्म में कमल हासन ने 'अपू' का किरदार निभाया। फिल्म की कहानी में एक सच्चे पुलिस अफसर (कमल हासन) को एक क्रिमिनल के गैंग को टारगेट करने की बहुत बड़ी कमान्त चुकानी पड़ती है। वह उस पुलिस अफसर को मार देते हैं और उसकी पत्नी को जहर दे देते हैं। वह दो जुड़वा लड़कों को जन्म देती है, जो बचपन में छिछड़ जाते हैं। दो भाई में से एक 'अपू' (कमल हासन) सेंट्रल का जोकर बन जाता है और दूसरा राजा (कमल) एक मैकेनिक है। बाद में अपू को अपने पिता की हत्या के बारे में पता चलता है और वो उन हत्यारों से बदला लेने का प्लान बनाता है।

सागर (1985)

राजा एक लड़की 'मोना' से गुरुचुप तरीके से प्यार में होता है। जब एक अमीर आदमी रवि अपनी दादी कमलादेवी के साथ रहने के लिए आता है, तो वह मोना को देखता है और उसे उससे प्यार हो जाता है। मोना के मन में भी भावनाएं उमड़ आती हैं। राजा को ये पता चलने के बाद उसका दिल टूट जाता है, लेकिन जब कमलादेवी को इस बारे में पता चलता है, तो वह मोना पर रवि को छोड़ने का दबाव डालने लगती है। 'सागर' को भारत की तरफ से 1985 में 'बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म' कैटिगरी में ऑस्कर के लिए भेजा गया था।



खबर संक्षेप

सोने में 120 रुपए की गिरावट, चांदी स्थिर



नई दिल्ली। वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुख के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में बृहस्पतिवार को सोना 120 रुपये की गिरावट के साथ 72,180 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। सोना 72,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत कल ही के बंद भाव 90,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर अपरिवर्तित बनी रही।

कृत्रिम मेधा का उपयोग बड़ी चुनौती : निलेकणि



नई दिल्ली। इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन एम निलेकणि ने कहा कि उपभोक्ता के लिए जिस तरीके से कृत्रिम मेधा का उपयोग है, वह कंपनियों के मामले में अलग है। उद्यमों के लिए अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के सामने आने में समय लगेगा और उनके लिए उत्पादकता में उछाल के लिए एआई के लाभ का उपयोग सबसे बड़ी चुनौती है।

इंडिगो पर लगा एक लाख का जुर्माना



नई दिल्ली। आब्रजन ब्यूरो ने वीजा संबंधी कथित उल्लंघन के लिए एयरलाइन कंपनी इंडिगो पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने के कारण कंपनी की वित्तीय स्थिति, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले आब्रजन ब्यूरो ने एयरलाइन कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

विदेशों में रह रहे लोगों ने भारत भेजे 120 अरब डॉलर



वाशिंगटन। विदेशों में रह रहे भारतीयों ने बीते वर्ष यानी 2023 में 120 अरब डॉलर स्वदेश भेजे। यह मैक्सिको को इसी अवधि में प्राप्त 66 अरब डॉलर के मुकाबले लगभग दोगुना आंकड़ा है। विदेशों से भेजी गयी राशि (रैमिटेन्स) प्राप्त करने वालों में चीन (50 अरब डॉलर), फिलिपीन (39 अरब डॉलर) और पाकिस्तान (27 अरब डॉलर) शीर्ष पांच देशों में शामिल हैं।

एफपीआई पंजीकरण नियमों में संशोधन



नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने प्रवासी भारतीयों, विदेशों में बसे भारतीयों (ओसीआई) और निवासी भारतीयों के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) से संबंधित पंजीकरण दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। नए नियम के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले एफपीआई को यह सुनिश्चित करना होगा।

स्पर्ध क्षमता बढ़ाने 300 करोड़ रुपए करेगी निवेश



नई दिल्ली। स्पर्ध क्षमता बढ़ाने की अगले पांच साल में 300 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात कही। कंपनी सरकार के 'मेड इन इंडिया' (भारत निर्मित) निगमों की उपकरणों के इस्तेमाल पर जोर दिए जाने से उत्पन्न नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपनी क्षमताएं बढ़ाना चाहती है। इस निवेश से इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपकरणों की अग्रणी विनिर्माता कंपनी को अपने काशीपुर संयंत्र में परिचालन बढ़ाने में मदद मिलेगी। 'स्पर्ध क्षमता बढ़ाने की मौजूदा क्षमता 25 लाख यूनिट प्रति वर्ष है।

अल्ट्राटेक सीमेंट 1,900 करोड़ में खरीदेगी इंडिया सीमेंट्स में 23% हिस्सेदारी

एजेसी ►► नई दिल्ली

आदित्य बिरला समूह की सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने दक्षिण भारत की कंपनी इंडिया सीमेंट लिमिटेड की 23 फीसदी हिस्सेदारी 1,900 करोड़ रुपए में खरीदने का फैसला किया है। कंपनी ने 267 रुपए प्रति शेयर के प्राइस पर इंडिया सीमेंट लिमिटेड में ये हिस्सेदारी खरीदेगी। गुरुवार 27 जून की सुबह शेयर बाजार खुलने से पहले अल्ट्राटेक सीमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई जिसमें इंडियासीमेंट की 7.06 करोड़ शेयर्स खरीदने पर बोर्ड ने अपनी मंजूरी दे दी। अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट में 23 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने का खुलासा स्टॉक एक्सचेंजों के पास रज्यूलेटरी फाइलिंग में किया है। ये हिस्सेदारी खरीदने के एलान के बाद ये अटकलें लगाई जा रही है

इंडिया सीमेंट्स एन श्रीनिवासन की कंपनी है और प्रमोटर की 28.42% हिस्सेदारी

अल्ट्राटेक को अदाणी से चुनौती!

आदित्य बिरला समूह ने अल्ट्राटेक सीमेंट के उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 200 मिलियन टन प्रति वर्ष करने का लक्ष्य रखा है। जो फिलहाल 150 मिलियन टन है। पिछले वर्ष अल्ट्राटेक सीमेंट ने सीमेंट कंपनी केसेराम इंडस्ट्रीज को खरीद था। ये माना जा रहा कि इंडिया सीमेंट के जरिए अल्ट्राटेक सीमेंट अपने प्रोडक्शन लक्ष्य को हासिल कर सकती है। अदाणी समूह ने 2022 में सीमेंट सेक्टर में कदम रखा था लेकिन अंबुजा सीमेंट, एसीसी, सांची इंडस्ट्रीज और पेन्ना सीमेंट खरीदने के बाद दूसरी बड़ी सीमेंट दो वर्ष में खन चुकी है जो अल्ट्राटेक सीमेंट के वर्चस्व को चुनौती दे रही है।



सीमेंट सेक्टर पर दबदबे की होड़

देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट में 23 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगी। इंडिया सीमेंट्स दक्षिण भारत में सीमेंट सेक्टर में बड़ा नाम है। हाल ही में गौतम अदाणी की अंबुजा सीमेंट ने पेन्ना सीमेंट को 10,422 करोड़ रुपए में खरीदा है। सीमेंट सेक्टर में आदित्य बिरला समूह और अदाणी समूह के बीच दबदबे की होड़ चल रही है और अपने वाले दिनों इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के और भी अधिग्रहण के मामले सामने आ सकते हैं।

चार कारोबारी सत्र में निवेशकों को 3.93 लाख करोड़ का हुआ मुनाफा

सेंसेक्स पहली बार 79,000 अंक के पार निफ्टी ने भी लांबा 24,000 अंक का स्तर

एजेसी ►► मुंबई

इन्फोसिस, रिलायंस और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में लिवाली से बाजार में बढ़त रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक संसेक्स 568.93 अंक चढ़कर 79,243.18 अंक के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 175.70 अंक बढ़कर 24,044.50 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ।

आईटी व सीमेंट क्षेत्र रहे मजबूत

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेजी की उम्मीद और सीमेंट क्षेत्र में मजबूती के दम पर मानक सूचकांकों ने तेजी दिखाई। हालांकि, मूल्यांकन संबंधी चिंताओं और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की बिकवाली से व्यापक बाजार स्थिर दायरे में ही रहा।

अल्ट्राटेक सीमेंट में पांच फीसदी से अधिक तेजी

सेंसेक्स के समूह में शामिल अंबुजा सीमेंट उत्पादक अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में पांच प्रतिशत से अधिक की तेजी आई। इससे पहले कंपनी ने कहा था कि यह वेबसाइट स्थित अपनी प्रतिद्वंद्वी कंपनी इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड में 23 प्रतिशत हिस्सेदारी का करीब 1.885 करोड़ रुपये में अधिग्रहण करेगी।

एफआईआई ने बेचे 3,535 करोड़ के शेयर

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 3,535.43 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों को शुद्ध रूप से बिकवाली की। बीएसई सेन्सेक्स बुधवार को 620.73 अंक उछलकर 78,674.25 अंक पर और एनएसई निफ्टी 147.5 अंक बढ़कर 23,868.80 अंक पर बंद हुआ था।

एशियाई बाजार में रही गिरावट

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉरपी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकॉंग का हैंगसेंग गिरावट के साथ बंद हुए। यूरोपीय बाजारों में दोपहर के कारोबार में मिलाजुला रुख था। बुधवार को अमेरिकी बाजार बंद के साथ बंद हुए थे।

- संसेक्स में 569 अंक और निफ्टी में 176 अंक की बढ़त दर्ज

- इंफोसिस, रिलायंस और टीसीएस जैसी कंपनियों में रही खरीदारी

- विदेशी संस्थागत निवेशकों ने की बाजार में बिकवाली



इन शेयरों में रही घट-बढ़

इसके अलावा इन्फोसिस, रिलायंस और टीसीएस के साथ एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स, भारतीय एयरटेल, पावर ग्रिड, कोटक महिंद्रा बैंक और टेक महिंद्रा के शेयर भी बढ़त में रहे। दूसरी तरफ लार्सन एड टूब्रो, सन फार्मा, केरले, एचडीएफसी बैंक और मारुति के शेयर नुकसान में रहे।

बाजार में आधा फीसदी की रही बढ़त

रैलिगेयर बौकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शेयर) अजित मिश्रा ने कहा, 'बाजार लगातार चौथे कारोबारी सत्र में सकरात्मक रहे और आधा प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ तेजी का रुख


बाजार पूंजीकरण 438.41 लाख करोड़ के उच्चस्तर पर

बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) बृहस्पतिवार को 438.41 लाख करोड़ रुपये के सर्वाधिक उच्चस्तर पर पहुंच गया। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 4,38,41,960.73 करोड़ रुपये (5,250 अरब अमेरिकी डॉलर) के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। चार कारोबारी सत्रों में निवेशकों की संपत्ति में 3.93 लाख करोड़ रुपये की बढ़ती हुई है।

बैंकों का फंडा हुआ कर्ज आया कई सालों के निचले स्तर 2.8 फीसदी पर

एजेसी ►► मुंबई

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली मजबूत एवं जुझारू बनी हुई है क्योंकि सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (जीएनपीए) अनुपात मार्च 2024 के अंत में कई साल के निचले स्तर 2.8 प्रतिशत पर आ गया है। आरबीआई ने बृहस्पतिवार को जून की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) जारी करते हुए कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जीएनपीए अनुपात कई वर्षों के निचले स्तर 2.8 प्रतिशत पर आ गया, जबकि शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनएनपीए) अनुपात मार्च, 2024 के अंत में 0.6 प्रतिशत रहा। रिपोर्ट के मुताबिक, "भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली मजबूत एवं जुझारू बनी हुई है, जो वृहद-आर्थिक और वित्तीय स्थिरता से समर्थित है।



- आरबीआई की रिपोर्ट में हुआ खुलासा
- वित्तीय प्रणाली मजबूत एवं जुझारू बनी हुई है

सुधरे हुए बहीखाते के साथ बैंक एवं वित्तीय संस्थान निरंतर ऋण विस्तार के जरिये आर्थिक गतिविधि का समर्थन कर रहे हैं। 'रिपोर्ट कहती है कि मार्च के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का पूंजी और जोखिम-भारित संपत्ति का अनुपात (सीआरएआर) और समान इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) अनुपात क्रमशः 16.8 प्रतिशत और 13.9 प्रतिशत रहा।

एनबीएफसी की सेहत स्वस्थ बनी हुई

रिपोर्ट कहती है कि ये परिदृश्य कल्पनिक झटकों के तहत किए गए कठोर रुढ़िवादी आकलन हैं और परिणामों की व्याख्या पूर्णतः गलत है और नए नए जोखिम हैं जो 2024 के अंत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की सेहत स्वस्थ बनी हुई थी।

जयपुर कंपनी रग्स ने लंदन में स्टोर खोला

एजेसी ►► नई दिल्ली

हस्तनिर्मित कालीन बनाने वाली कंपनी जयपुर रग्स के निदेशक योगेश चौधरी ने कहा कि कंपनी ने इस सप्ताह लंदन में अपना एक शोरूम खोला है तथा चालू वित्त वर्ष में दो और अंतरराष्ट्रीय स्टोर खोलने की योजना है।

जयपुर रग्स ने दिसंबर 2021 में दुनिया की फैशन राजधानी इटली के मिलान में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय स्टोर खोला था। चौधरी ने कहा, हम मिलान और दुबई में अपनी सफलता के बाद वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति का विस्तार करने को लेकर उत्साहित हैं। हम लंदन में अपने नए



- चालू वित्त वर्ष में दो और अंतरराष्ट्रीय स्टोर खोलने की योजना

शोरूम के जरिए वैश्विक ग्राहकों तक

फिल्म सिटी के लिए बोनी कपूर का यीडा से करार

एजेसी ►► नोएडा (उप्र)

फिल्म सिटी के निर्माण के लिए फिल्म निर्माता बोनी कपूर की कंपनी ने ब्यू प्रोजेक्ट्स और यमुना प्राधिकरण ने एक समझौते पर बृहस्पतिवार को हस्ताक्षर किए हैं। फिल्म सिटी का निर्माण कम से कम 1,510 करोड़ रुपये के निवेश से किया जा रहा है और इससे 10 हजार नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद है। ब्यू प्रोजेक्ट्स ने 31 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार को 18 प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी की पेशकश के साथ बोली जीती थी। समझौते पर बोनी



- 1,510 करोड़ रुपए का होगा निवेश
- यमुना प्राधिकरण से किया समझौता

बड़ी फिल्म सिटी बनाएंगे जो देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे के पास होगा। इसमें कम से कम 1,510 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

भारतीय डिजाइन और शिल्प पहुंचा रहे हैं। यह हमारी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। चालू वित्त वर्ष के अंत तक हमारा लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो या उससे अधिक स्टोर खोलना है।' धरेलू बाजार में इसके कुल 10 'मोनो-ब्रांड' स्टोर हैं।

मजबूत ब्रांड का निर्माण कर रहे

दौधरी ने कहा, 'हम भारत के छोटे तथा मझोले शहरों में या तो अपनी मौजूदा बाजार उपस्थिति को और बढ़ाकर या नए बाजारों में प्रवेश करके एक मजबूत ब्रांड का निर्माण कर रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में धरेलू स्तर पर पांच नए स्टोर खोलने की योजना है।

यीडा ने सुपरटेक, सनवर्ल्ड को जमीन आवंटन किया रद्द

नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने निर्माणधीन नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और प्रस्तावित फिल्म सिटी के नजदीक सनवर्ल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुपरटेक टाउनशिप को दी गई जमीनों का आवंटन निरस्त कर दिया है। प्राधिकरण ने इन दोनों रियल्टी कंपनियों पर लंबित बकायों को देखते हुए बुधवार को उन्हें आवंटित जमीनी निरस्त कर दी है। इन कंपनियों को यमुना एक्सप्रेसवे से सटे सेक्टर-22डी में टाउनशिप विकसित करने के लिए करीब 100 एकड़ जमीन दी गई थी। सनवर्ल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर भूमि आवंटन के एवज में 164.86 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी जबकि सुपरटेक टाउनशिप को 137.28 करोड़ रुपये चुकाने थे।

टाटा मोटर्स वाहन बाजार में बढ़ाएगी अपनी हिस्सेदारी



मुंबई। टाटा मोटर्स को उम्मीद है कि भारतीय यात्री वाहन बाजार वर्ष 2030 तक सालाना 60 लाख इकाई तक पहुंच जाएगा और कंपनी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 18-20 प्रतिशत करने के लिए नए मॉडल उतारने की तैयारी कर रही है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने यह बात कही। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के

प्रबंध निदेशक शैलेश चंदा ने यहां एक सम्मेलन में संबद्धताओं से कहा कि वर्ष 2027 से सख्त कैटेग्री-3 (कॉम्पैक्ट ऑटोमोबाइल) मानक लागू होने से इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और सीएनजी वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ेगी, जबकि पारंपरिक पेट्रोल, डीजल इंजन (आईसीई) वाले वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। चंदा ने कहा, हमने वाहन उद्योग के भविष्य के रुझानों और अगले पांच से छह वर्षों में होने वाले विकास पर ध्यान दिया है। हम इन पांच-छह वर्षों में कई बदलाव होते हुए देख रहे हैं।

एलएंडटी समूह में 45,000 श्रमिकों इंजीनियरों की कमी



नई दिल्ली। विविध क्षेत्रों में कार्यरत लार्सन एंड टूब्रो (एलएंडटी) समूह इस समय 45,000 श्रमिकों, इंजीनियरों की कमी का सामना कर रहा है। समूह के चेयरमैन एस एन सुब्रमण्यम ने बुधवार को यह बात कही। उन्होंने यहां कहा कि प्रमुख इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण कारोबार 25,000-30,000 श्रमिकों की कमी से जूझ रहा है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और आईटी-सक्षम सेवा कारोबार 20,000 इंजीनियरों की कमी का सामना कर रहा है।

बांड 31 मार्च 2025 तक 10 महीनों के लिए होंगे शामिल भारत के बांड आज से जेपी मॉर्गन सूचकांक में शामिल होंगे

एजेसी ►► नई दिल्ली

भारत सरकार की तरफ से जारी होने वाले बांड (आईजीबी) को जेपी मॉर्गन के उभरते बाजार बांड सूचकांक में शुक्रवार से शामिल किया जाएगा। इससे सरकार के लिए उधारी जुटाने की लागत में कमी आएगी। भारत सरकार के बांड को 28 जून, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक 10 महीनों की अवधि के लिए जेपी मॉर्गन के उभरते बाजार सूचकांक में शामिल किया जाएगा। यह सूचकांक में इसके भारांक में एक प्रतिशत की क्रमिक वृद्धि दर्शाता है।

भारतीय बाजार के लिए ऐतिहासिक पल

इंडियाबॉन्ड्स डॉट कॉम के सह-संस्थापक विशाल गोकना ने कहा कि जेपी मॉर्गन सूचकांक में भारतीय सरकारी बांड (आईजीबी) को शामिल करना भारत में विशिष्ट आय वाले बाजारों के लिए एक ऐतिहासिक पल है। गोकना ने कहा, यह भारतीय बांड बाजारों को अतिव्यापक रूप से वैश्विक बांड निवेशकों को नजर में रखता है। निवेशक पूंजी लगाने का मौका तलाश रहे हैं। शुरुआती निवेश 25-30 अरब डॉलर का होगा चाहेपे लेकिन इस सूचकांक का हिस्सा बनने से अगले कुछ वर्षों में इस संख्या के बढ़ने का नार्ग प्रक्षेपण होता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में रुख या चीन जैसे देशों में निवेश की अनिच्छा होने के कारण वैश्विक निवेशक उभरते बाजारों में पूंजी लगाने का मौका तलाश रहे हैं।



उद्योगों को अधिक धरेलू पूंजी मिल पाएगी : इसकी वजह यह है कि कई विदेशी कंपियों के लिए वैश्विक सूचकांकों पर नजर रखना अनिवार्य है। इससे विदेशों से बड़े पैमाने पर निवेशक भारत लाने में भी मदद मिलेगी। इससे उद्योग के लिए अधिक धरेलू पूंजी उपलब्ध हो पाएगी।

भारत का भारांक अधिकतम 10 फीसदी होगा

जीबीआई-इंफो व्लोबल डायवर्सिफाइड सूचकांक में भारत का भारांक अधिकतम 10 प्रतिशत और जीबीआई-इंफो व्लोबल सूचकांक में लगभग 8.7 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। इस सूचकांक में भारत सरकार के बांड को शामिल किए जाने से अधिक विदेशी प्रवाह को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। बांड में लॉक-इन की जरूरत नहीं होगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के अपने बजट भाषण में कहा था, 'सरकारी प्रतिभूतियों को कुछ निर्दिष्ट श्रेणियां अनिवासी निवेशकों के लिए पूरी तरह खोली जाएंगी और यह धरेलू निवेशकों के लिए भी उपलब्ध होगी।' सूचकांकों में सूचीबद्ध होने वाली निर्दिष्ट प्रतिभूतियों (बांड) में लॉक-इन की जरूरत नहीं होगी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष ने जताई नाराजगी

एजेसी नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के संयुक्त सदन को संबोधित किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से सरकार अपने कार्यक्रमों और नीतियों की रूपरेखा बताती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सत्तारूढ़ दल संसद के दोनों सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेगा, जिस पर चर्चा भी होगी। राष्ट्रपति ने चुनाव में जीतने वाले सांसदों को बधाई दी है। इस दौरान विपक्षी दलों ने नीत पत्र लीक मुद्दे को राष्ट्रपति द्वारा जिक्र होने पर शोर मचाया। इसके अलावा जब राष्ट्रपति ने 1975 की इमरजेंसी का जिक्र किया तो एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के सांसद 'शेम-शेम' करके विरोध करने लगे तो, दूसरी ओर इमरजेंसी का जिक्र करने पर कांग्रेस सांसदों ने नाराजगी जाहिर की।

कांग्रेस सांसद थरुर ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि इतने साल बाद बात हो रही



कांग्रेस ने संविधान की धजिया उड़ाई, आज साथ लेकर चल रहे: मांसी



आपातकाल पर राष्ट्रपति के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांसी ने कहा कि आपातकाल एक काला दिन था। उस दिन को याद रखना जरूरी है क्योंकि कांग्रेस ने संविधान की धजिया उड़ाई थी और आज वे संविधान की प्रतिष्ठा लेकर घूम रहे हैं। लोगों को समझना चाहिए कि संविधान को कोई खतरा नहीं है, अगर कोई खतरा है तो वो उन लोगों (कांग्रेस) से है जो 1975 में थे।

कांग्रेस ने संविधान को चोट पहुंचाई: गिरिराज



संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपातकाल पर की गई टिप्पणी पर भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर किसी ने संविधान को चोट पहुंचाई है तो वह कांग्रेस पार्टी है। नई पीढ़ी को उस दौर के बारे में जानने का अधिकार है।

मोदी सरकार के नाम कई उपलब्धियां: देव



राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाजपा सांसद बिल्लव कुमार देव ने कहा कि इस अभिभाषण में राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से नरेन्द्र मोदी सरकार की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख किया और आने वाले समय में किए जाने वाले कार्यों के बारे में भी बताया। जिस तरह से पीएम ने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, वह आने वाले समय में भी उसी स्पष्टता और ईमानदारी के साथ काम करेंगे। इससे देश को लाभ होगा।

सरकार ने योजनाओं के बारे में बताया: शांमवी



राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोजपा (रामविलास) सांसद शांमवी चौधरी ने कहा कि हमेशा कहती हूँ कि विपक्ष का काम हम समय कुछ न कुछ बोलते रहना है। मेरा मानना है कि राष्ट्रपति ने बहुत ही संक्षिप्त तरीके से हमें बताया कि एनडीए सरकार ने देश के लिए क्या किया है और भविष्य में वे देश के लिए क्या करना चाहते हैं? उन्होंने हर योजना की जानकारी दी, पहली बार के सांसदों को उनके भाषणों से बहुत कुछ सीखने को मिला।

नीट परीक्षा या बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं कहा: थरुर



राष्ट्रपति के संबोधन पर कांग्रेस सांसद शशि थरुर ने कहा कि 49 साल बाद संविधान में आपातकाल के बारे में बात करने का कोई तर्क नहीं था। उन्हें आज के मुद्दों पर बोलना चाहिए था। हमने नीट परीक्षा या बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं सुना। गणित शब्द राष्ट्रपति या पीएम मोदी से नहीं निकला। भारत-चीन सीमा जैसे मुद्दों को संबोधन में उठाया जाना चाहिए था।

खबर संक्षेप

जुलाई महीने में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक

नई दिल्ली। जुलाई में 12 दिन बैंकों में छुट्टी रहेंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की के अनुसार जुलाई में पड़ रहे अवकाश में रीजनल, नेशनल हॉलिडे के साथ-साथ दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार की छुट्टियां शामिल हैं। एमएचआईपी डे, रथयात्रा, मुहर्रम और शहीद ऊधम सिंह दिवस पड़ रहे हैं। अलग-अलग राज्यों में छुट्टी के चलते बैंक बंद रहेंगे।

कुशावाहा को राज्यसभा भेजने की अटकलें

नई दिल्ली। भाजपा उपाध्यक्ष कुशावाहा को राज्यसभा भेज सकते हैं। अटकलें हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुशावाहा समाज को जोड़ने की कोशिश में भाजपा ऐसा प्लान बना रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की जमीन खिसकने का एक कारण जातीय गणित का योजनाबद्ध प्लान नहीं बना पाना था भाजपा इस गलती को दोहराना नहीं चाहती है।

सीएम मान की पोस्ट केजरीवाल झुकेंगे नहीं

चंडीगढ़। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गुरुवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर चाहे जितने भी अत्याचार किए जाएं वह झुकेंगे नहीं। मान का यह बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद आया है।

सिक्किम के पहले निर्वाचित सांसद नहीं रहे गंगटोक।

सिक्किम की सियासत का प्रमुख चेहरा रहे पहलामान सुब्बा का निधन हो गया। लोकसभा के पूर्व सदस्य पहलामान सुब्बा का लंबी बीमारी के बाद गंगटोक के समीप एक अस्पताल में गुरुवार को निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। सुब्बा ने सिक्किम जनता पार्टी के टिकट पर 1980 का चुनाव सफलतापूर्वक लड़ा और 1984 तक सांसद रहे।

नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने किया सुसाइड

कोटा। राजस्थान का कोचिंग हब कहे जाने वाले कोटा से एक और दुखद खबर है। दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में रहकर नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। हॉस्टल के कमरे में छात्र मृत पाया गया। पुलिस छात्र को लेकर एमबीएस अस्पताल पहुंची तो उसे मृत घोषित किया गया। मृतक छात्र स्थिति अग्रवाल बिहार के भागलपुर का रहने वाला था।

राज्य सरकार ने फेरीवालों को भी नहीं बख्शा, प्रशासन ने हटा दिया

भाजपा के कार्यालय पर भी चला बुलडोजर पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं में हाथापाई

मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी ने कोलकाता और उसके पड़ोसी क्षेत्र साल्ट लेक में फुटपाथों पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फेरीवालों पर भी रहम नहीं किया।

एजेसी कोलकाता

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सहित राज्य के कई जिलों में मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी के निर्देश के बाद अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। इसी के तहत कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का कार्यालय तोड़ दिया। कोलकाता के तारातला के गोरगाचा में जहां भाजपा का ऑफिस तोड़ा गया, वहां जब पुलिस पहुंची तो भाजपा कार्यकर्ताओं से उनकी कहासुनी हो गई। साथ ही हाथापाई की भी नौबत आ गई थी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने पिछले दो दिन में हजारों की संख्या में फुटपाथ पर लगी दुकानों को हटाया है। मुख्यमंत्री बेनर्जी ने फुटपाथ पर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अभियान को लेकर गुरुवार को एक उच्चस्तरीय बैठक भी की थी।



फुटपाथ पर लगी दुकानों को भी तोड़ा



जैसे-जैसे फेरीवालों को भी नहीं बख्शा, प्रशासन ने हटा दिया

कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम शहर के फुटपाथों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं होने देंगे। सबसे पहले रेहड़ी-पटरी वालों को हटाने के लिए हमें अपने व्यवसाय चलाने बने अस्थायी ढांचों को हटाना है। वे सहयोग नहीं किए तो अतिक्रमण को हटाने के लिए हम जैसीबी मशीन का उपयोग किया गया। इस मामले में कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि हम शहर के फुटपाथों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि वे इसकी जानकारी दे दिए हैं।

दो दिन में हजारों दुकानों को हटाया गया



पश्चिम बंगाल पुलिस ने पिछले 2 दिन में हजारों की संख्या में फुटपाथ पर लगी दुकानों को हटाया है। सीएम बेनर्जी ने फुटपाथ को कब्जा किए लोगों के खिलाफ प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अभियान को लेकर गुरुवार को एक उच्चस्तरीय बैठक भी की थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोलकाता और साल्ट लेक में खाद्य पदार्थ, वस्त्र और विभिन्न उत्पाद बेचने के लिए दुकान लगाने वाले फेरीवालों को हटाने के लिए कहा गया है। ऐसे में उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस ने मंगलवार सुबह से ही जैसीबी मशीन की मदद से भवानीपुर क्षेत्र में सरकारी परिसरों के आसपास अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया है।

कंपनी ने अब तक आधिकारिक बयान नहीं दिया

एजेसी नई दिल्ली

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के सर्वर में सेंध लगने की खबर है। बताया जा रहा है कि बीएसएनएल के करीब 278 जीबी डेटा हैकर्स के पास पहुंचा है। इस डेटा लीक में लोगों के सिम कार्ड से जुड़ी जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, घर का एड्रेस, सर्वर सिक्वोरिटी कीज आदि शामिल हैं। इन डेटा का इस्तेमाल गलत कार्यों में किया जा सकता है और इन डेटा की मदद से लोगों को साइबर ठगी का शिकार भी बनाया जा सकता है। इस डेटा लीक की जानकारी डिजिटल रिस्क मैनेजमेंट फर्म एथेनियम टीच टेक ने दी है। इस डेटा लीक की घटना को बिबरफॉन्टोम नाम के हैकर ने अंजाम दिया है। कहा जा रहा है कि यह डार्क वेब पर उसका निक नाम हो सकता है। अभी तक यह साफ नहीं है कि यह डेटा लीक किसी हैकर ने किया है या किसी हैकर ग्रुप ने।



फिलहाल किसी हैकर या समूह का नाम इसमें नहीं आया सामने

कुछ शायराना अंदाज में फड़णवीस से मिले उद्भव



मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। इस दौरान देवेंद्र फड़णवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार और उद्धव ठाकरे समेत तमाम दिग्गज नेता सदन में पहुंचे। उद्भव ठाकरे और देवेंद्र फड़णवीस की मुलाकात की काफी चर्चा रही। दोनों नेता पार जा रहे थे तो वहां लिफ्ट के बाहर दोनों आमने-सामने आ गए। फिर ना-ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठ अंदाज में बातें हुईं।

लोक कलाकारों की प्रस्तुति



बेंगलुरु। बेंगलुरु के कांतीरावा स्टैडियम में गुरुवार को बेंगलुरु के संस्थापक नादप्रभु केंपेगौड़ा की जयंती समारोह के दौरान लोक कलाकारों ने प्रस्तुति दी।

कोझिकोड की ऊंची चोटियों पर भूस्खलन होने से भारी तबाही

केरल में बारिश से भारी नुकसान, अभी राहत नहीं

एजेसी नई दिल्ली

केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, पेड़ उखड़ गए और नदियां तथा बांधों का जलस्तर भी बढ़ गया। समुद्र की ऊंची लहरों ने त्रिशूर और एर्नाकुलम जैसे कई जिलों के तटीय हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। कोझिकोड की ऊंची चोटियों पर भूस्खलन होने से भारी तबाही हुई। एर्नाकुलम जिला प्रशासन ने मुवतुपुझा और थोडुपुझा नदियों के तट पर रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है। केरल में लगातार हो रही बारिश के कारण शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी का ऐलान किया गया है।



कई घर क्षतिग्रस्त, बांधों के द्वार खोले गए

उत्तर प्रदेश में जलद दिखेगा असर

पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में अचानक वे बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून पहुंच गया है और जल्द ही पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा। आने वाले 48 घंटे में ही मानसून पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत एनसीआर को प्रभावित करेगा।

राजस्थान भारी बारिश की चपेट में


राजस्थान के कई इलाकों में बीते चौबीस घंटे में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। 24 घंटे में भरतपुर, अजमेर व कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई है। जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में और उदयपुर, जयपुर संभाग के अनेक भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई।

कोर्ट की रेलवे को फटकार

इस तरह लोकल ट्रेन की यात्रा पर रेलवे को शर्म आनी चाहिए

एजेसी मुंबई

मुंबई की लोकल ट्रेनों से हर रोज लाखों लोग यात्रा करते हैं। खचाखच भरी ट्रेनों में कई बार यात्री हादसे का शिकार हो जाते हैं। अब यात्रियों की मौत के आंकड़ों को बढ़ता देख बॉम्बे हाईकोर्ट ने मध्य और पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधकों को फटकार लगाई है। उन्होंने उनसे व्यक्तिगत रूप से जांचें गाय हलफनामे मांगे। अदालत ने इस गंभीर मुद्दे को सुलझाने के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास से भी सहायता मांगी। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय ने



सुनवाई के दौरान कहा कि इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए मुझे खेद है। मुझे इस बात पर शर्म आती है कि यात्रियों को किस तरह स्थानीय स्तर पर ऐसी यात्रा करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें उनकी जान तक चली जाती है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि आशा है कि प्रति हजार यात्रियों पर मृत्यु दर लंदन से कम हो जाएगी।